



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 16—सितम्बर 22, 2006 (भाद्रपद 25, 1928)  
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 16—SEPTEMBER 22, 2006 (BHADRA 25, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

## [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

## संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 6 जुलाई 2006

सं. ए. 32014/2/06-प्रशा.1--राष्ट्रपति, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 मई 2006 के का.ज्ञा.सं. 5/8/06-सी.एस.II के अनुसरण में, संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों (वैयक्तिक सहायक) को उनके नाम के सामने दी गई अवधि के लिए आयोग के कार्यालय में रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलयित)(नामोद्दिष्ट निजी सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं :--

| क्रम | अधिकारी का नाम      | अवधि                       |
|------|---------------------|----------------------------|
| सं.  |                     |                            |
| 1    | 2                   | 3                          |
|      | सर्वश्री            |                            |
| 1.   | सुश्री पी.के. चड्ढा | 1.06.2006 से 31.12.2006 तक |
| 2.   | देवेन्द्र कुमार     | 1.06.2006 से 31.12.2006 तक |

| 1   | 2                         | 3                                    |
|-----|---------------------------|--------------------------------------|
| 3.  | सुश्री मुक्ता मकर         | 1.06.2006 से 31.12.2006 तक           |
| 4.  | सुश्री कुसुम बुद्धिराजा   | 1.06.2006 से 31.12.2006 तक           |
| 5.  | सी.के. परमेश्वरन          | 1.06.2006 से 31.12.2006 तक           |
| 6.  | वीरेन्द्र कुमार (अ.जा.)   | 1.06.2006 से 31.12.2006 तक           |
| 7.  | एस.एल. भुट्टन             | 30.06.2006 से 31.12.2006 तक          |
| 8.  | सुश्री रेणु कोहली         | 30.06.2006 से 31.12.2006 तक          |
| 9.  | गोपाल राजवानी (अ.जा.)     | 30.06.2006 से 31.12.2006 तक          |
| 10. | सुश्री संतोष आनंद (अ.जा.) | 30.06.2006 से 31.12.2006 तक          |
| 11. | आई.एस. कटारिया (अ.जा.)    | 30.06.2006 से (अप.)<br>31.12.2006 तक |

2. तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

(i) तदर्थ पदोन्नति से इस ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने

या के.स.आ.से. (उपसचिव) के ग्रेड "क", "ख" विलयित (नि.स.) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई हक नहीं मिलेगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए रह किया जा सकेगा।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 24 जुलाई 2006

सं. ए. 19017/1/06-प्रशा.1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.5.2006 के का.ज्ञा.सं. 05/08/2006-सी.एस.II के अनुसरण में राष्ट्रपति, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड "ग" के नियमित आशुलिपिक श्री आजाद सिंह यादव को संघ लोक सेवा आयोग के केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में 21.07.2006 से 31.12.2006 अपराह्न तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर आशुलिपिक ग्रेड "क" एवं "ख" (विलयित) (निजी सचिव के रूप में नामोद्दिष्ट) नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :--

(i) तदर्थ पदोन्नति से इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" एवं "ख" विलयित (निजी सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का उनको कोई हक नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 28 जुलाई 2006

सं. ए. 12011/2/98-प्रशा.1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 जून, 2006 के का.ज्ञा.सं. 5/07/2006-सी.एस.II के अनुसरण में, राष्ट्रपति, के. स. आ. से. संवर्ग के निम्नलिखित आशुलिपिकों, ग्रेड "क" एवं "ख" (विलयित) को दिनांक 01.07.06 से 31.12.06 तक या अधिकारियों की चयन सूची उपलब्ध होने तक, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग में रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर के. स. आ. से. के निजी सचिव ग्रेड (प्रधान निजी सचिव) में नियुक्त करते हैं।

1. सुश्री एस.एम. ओबराय

2. श्री एच.सी. सहगल

2. उपर्युक्त अधिकारियों की प्रधान निजी सचिव के पद पर पदोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर की गई है और इससे उन्हें उक्त ग्रेड में

अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा के. स. आ. से. संवर्ग के निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का कोई हक नहीं मिल जाएगा।

3. यह इस कार्यालय की दिनांक 05 जनवरी, 2006 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में जारी किया जाता है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 3 अगस्त 2006

सं. ए. 19017/02/06-प्रशा.1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.5.2006 के का.ज्ञा.सं. 05/08/2006-सी.एस.II के अनुसरण में राष्ट्रपति, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड "ग" के नियमित आशुलिपिक श्री गुरुदेव सिंह को संघ लोक सेवा आयोग के केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में 21.07.2006 से 31.12.2006 अपराह्न तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर आशुलिपिक ग्रेड "क" एवं "ख" (विलयित) (निजी सचिव के रूप में नामोद्दिष्ट) नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :--

(I) तदर्थ पदोन्नति से इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" एवं "ख" विलयित (निजी सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का उनको कोई हक नहीं होगा।

(II) तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए. 19017/03/06-प्रशा.1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.5.2006 के का.ज्ञा.सं. 05/08/2006-सी.एस.II के अनुसरण में राष्ट्रपति, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड "ग" के नियमित आशुलिपिक श्री गुरशरण सिंह को संघ लोक सेवा आयोग के केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में 01.08.2006 से 31.12.2006 अपराह्न तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर आशुलिपिक ग्रेड "क" एवं "ख" (विलयित) (निजी सचिव के रूप में नामोद्दिष्ट) नियुक्त करते हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :--

(i) तदर्थ पदोन्नति से इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने

अथवा केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" एवं "ख" विलयित (निजी सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का उनको कोई हक नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 4 अगस्त 2006

सं. ए. 19017/01/01-प्रशा.1--राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली में कोर्ट मास्टर के रूप में प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावासान पर संघ लोक सेवा आयोग के केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के नियमित आशुलिपिक ग्रेड "क" एवं "ख" (विलयित)(निजी सचिव के रूप में नामोद्दिष्ट) श्री रोहताश सिंह ने आयोग कार्यालय में 02 अगस्त, 2006 के पूर्वाह्न में इयूटी हेतु रिपोर्ट किया है।

2. प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावासान पर श्री रोहताश सिंह रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में 8825/- रु. प्रतिमाह की दर से वेतन प्राप्त करेंगे।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 8 अगस्त 2006

सं. ए. 19017/01/2001-प्रशा.1--संघ लोक सेवा आयोग के केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के नियमित आशुलिपिक ग्रेड "क" एवं "ख" (विलयित)(निजी सचिव के रूप में नामोद्दिष्ट) श्री रोहताश सिंह की "सीधी भर्ती आधार पर" दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में निजी सचिव (रु. 10,000-325-15,200/-) के पद पर नियुक्ति के लिए चयन के परिणामस्वरूप, सक्षम प्राधिकारी ने उनका तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। तदनुसार श्री रोहताश सिंह को दिनांक 08.08.2006 अपराह्न से आयोग के उनके कार्यभार से मुक्त किया जाता है जिससे कि वे दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में अपना कार्यभार ग्रहण कर सकें।

2. श्री रोहताश सिंह द्वारा की गई सेवा की गणना के.सि.से. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 26(2) के अंतर्गत पेंशन के लिए की जाएगी।

3. स्थायी सरकारी कर्मचारी होने के कारण श्री रोहताश सिंह का पुनर्ग्रहणाधिकार नियमानुसार बना रहेगा।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 24 अगस्त 2006

सं. ए. 32013/1/06-प्रशा.1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10 अगस्त, 2006 के आ. सं. 05/8/2006 सी एस-I (डेस्क) के

अनुसरण में राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को (रु. 10,000-325-15,200/-) के वेतनमान में प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से आगामी आदेशों तक संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय में के.सि.से. के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्त करते हैं :-

| क्रम सं. | सीएसएल सं. | नाम एवं जन्म तिथि                    | नियुक्ति की तारीख         | संवर्ग जहां से अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य किया है |
|----------|------------|--------------------------------------|---------------------------|--|
|          |            | सर्वश्री                             |                           |  |
| 1.       | 5381       | सुरेश चंद शर्मा<br>(22.11.1949)      | 10.08.2006<br>(पूर्वाह्न) | संघ लोक सेवा<br>आयोग                                   |
| 2.       | 5388       | श्रीमती पुष्पा बिष्ट<br>(12.08.1960) | 17.08.2006<br>(पूर्वाह्न) | वाणिज्य विभाग  |
| 3.       | 5562       | श्री राम सिंह<br>(25.03.1949)        | 10.08.2006<br>(पूर्वाह्न) | संघ लोक सेवा   |

2. उपर्युक्त अधिकारी की तदर्थ आधार पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

(i) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई हक नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए कभी भी समाप्त की जा सकती है।

दिनेश कुमार  
अवर सचिव (प्रशा.)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 2006

सं. 2/4/06-प्रशासन/34340--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में निजी सहायक श्री विनीत आनन्द को निजी सचिव के पद पर वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में तदर्थ आधार पर दिनांक 31.08.2006 (पूर्वाह्न) से तीन माह तक की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

2. श्री विनीत आनन्द को निजी सचिव के पद पर नियुक्ति समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सतर्कता आयोग (स्टाफ) नियमावली, 1964 के नियम 9 के अन्तर्गत पूर्णतः अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर है तथा इससे नियमित नियुक्ति के लिए उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

मांगे लाल  
उप सचिव

कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

सं. 2/21/06-प्रशासन/34343--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में अवर सचिव श्री पी. एम. पिल्लै को उप सचिव के पद पर

वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/- में तदर्थ रूप से दिनांक 31.08.2006 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल  
उप सचिव  
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

सं. 2/2/06-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में अनुभाग अधिकारी श्री एम. ए. खान को अवर सचिव के पद पर वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- में तदर्थ रूप से दिनांक 10.08.2006 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल  
उप सचिव  
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

(आई.आर.एल.ए.-5283), ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, भोपाल ने दिनांक 31.07.2006 को (अपराह्न) में अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है। तदनुसार इन्हें इस बल की नफरी से इसी तिथि से अर्थात् दिनांक 31.07.2006 (अपराह्न) से निकाले जाते हैं।

रणजीत सिंह  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

सं. ओ.दो.-3692/06-सी.आर.सी.(चिकित्सा)--डॉक्टर एस. के. शर्मा, पुलिस उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) (इरला नं. 6737) संयुक्त अस्पताल, के.रि.पु. बल, सिंदरी (झारखण्ड) से सेवा निवृत्त होने पर दिनांक 31.07.2006 (अपराह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 31.07.2006 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

रणजीत सिंह  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

#### गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 अगस्त 2006

सं. ओ.दो.-4883/06-कार्मिक-1--श्री डी. सी. जोशी, उप कमाण्डेंट (इरला-4883) 98/124 बटालियन, का स्वेच्छ से सेवानिवृत्त नोटिस दिनांक 28.03.2006 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लेने के परिणामस्वरूप उपरोक्त अधिकारी ने अपने पद से कार्यभार दिनांक 01.08.2006 (पूर्वाह्न) में त्याग दिया है। अतः इनका नाम इस बल की नफरी से उसी तिथि से अर्थात् दिनांक 01.08.2006 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

रणजीत सिंह  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

दिनांक 28 अगस्त 2006

सं. ओ.दो.-3588/2006-कार्मिक-1--भारत सरकार ने श्री एस. के. जैन, भा.पु.से. (ए.एम. 84) उप निदेशक, एन.सी.आर.बी. को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रु. 18,400-500-22,400/- में, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 30.01.2009 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो के लिए पुलिस महानिरीक्षक पद पर नियुक्त किया है।

2. तदनुसार, अधिकारी ने पुलिस महानिरीक्षक, के.रि.पु. बल, का कार्यभार दिनांक 05.06.2006 (पूर्वाह्न) को संभाल लिया है।

रणजीत सिंह  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

सं. ओ.दो.-6704/2006-कार्मिक-1--सरकारी सेवा से त्याग-पत्र स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप, श्री गुरुकरण सिंह बेंस, सहायक कमान्डेंट (आई.आर.एल.ए.-6704), प्रशिक्षक अधिकारी, सीआरपीएफ अकादमी, कादरपुर (Trainee Officer, 37th batch DAGOs of CRPF Academy Kadarpur) ने दिनांक 18.07.2006 को (अपराह्न) में अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है। तदनुसार इन्हें इस बल की नफरी से इसी तिथि से अर्थात् दिनांक 18.07.2006 (अपराह्न) से निकाले जाते हैं।

रणजीत सिंह  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 अगस्त 2006

सं. ई-16016(5)04/2003/कार्मिक-1/52--डॉ. पी. वी. राव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एस जी), को अपने मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन पर दिनांक 17 अप्रैल 2006 (अपराह्न) से केओसु बल निसा, हैदराबाद से कार्यमुक्त किया गया है।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/केओसुब

सं. ओ.दो.-5283/2006-कार्मिक-1--सरकारी सेवा से त्याग-पत्र स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप, श्री शौलेश शर्मा, सहायक कमान्डेंट

सं. ई-16016(5)04/96/कार्मिक-1/53--डॉ. सी. आर. मोहन्ती, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एस जी), को अपने मूल संवर्ग (सीजीएचएस,

भुवनेश्वर) में प्रत्यावर्तन पर दिनांक 30 जून 2006 (अपराह) से केओसु बल के टी. सी. मुण्डाली से कार्यमुक्त किया गया है।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/केओसुब

सं. ई-16016(5)04/2003/कार्मिक-1/54--डॉ. एस. उमाशंकर, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, को सीजीएचएस, चेन्नई, में प्रत्यावर्तन पर दिनांक 30 अप्रैल 2006 (अपराह) से केओसु बल, आरटीसी अराकोणम से कार्यमुक्त किया गया है।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/केओसुब

सं. ई-16015(2)/2/2003/कार्मिक-1/55--राष्ट्रपति, श्री एस. एस. लाल, सहायक कमान्डेन्ट को नियमित पदोन्नति पर केओसुब में उप कमान्डेन्ट के पद पर 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं। वह केओसु बल इकाई, प्रथम आरक्षित वाहिनी बरवाह में पदस्थ हैं जहां उन्होंने दिनांक 03 मई 2006 (पूर्वाह) से उप कमान्डेन्ट के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/केओसुब

दिनांक 30 अगस्त 2006

सं. ई-16015(2)04/2003/कार्मिक-1/57--राष्ट्रपति, केओसुब के निम्नलिखित निरीक्षक/(अनुसचिव/आशुलिपिक) को नियमित पदोन्नति पर केओसुब में सहायक कमान्डेन्ट/जेएओ के पद पर 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शायी गई दिनांक से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं :-

| क्रम सं. | अधिकारी का नाम | कार्यालय/इकाई जहां पर कार्यभार ग्रहण किया | सहायक कमान्डेन्ट/जेएओ के रूप में कार्यभार संभालने की दिनांक |
|----------|----------------|---|---|
| 1        | 2              | 3   | 4   |
|          | सर्वश्री       |   |   |
| 1.       | आर. के. पाठक   | सहायक कमान्डेन्ट/पर्स. बल मुख्यालय        | 21.08.2006  |
| 2.       | ईसाक शरीफ      | सहायक कमान्डेन्ट/एल. एण्ड आर. बल मुख्यालय | 08.08.2006  |
| 3.       | आर. मणिकान्तन  | उ. ख. मुख्यालय, नई दिल्ली                 | 18.08.2006  |
| 4.       | पूरण सिंह      | जी. बी. एस. दिल्ली                        | 09.08.2006  |
| 5.       | खरग सिंह       | पश्चिम खण्ड, मुम्बई                       | 18.08.2006  |

| 1  | 2             | 3                          | 4          |
|----|---------------|----------------------------|------------|
| 6. | जी. के. कुछल  | 6वीं आ.वा. आराकोणम         | 17.08.2006 |
| 7. | एच. एन. राम   | तृतीय आरक्षित वाहिनी भिलाई | 18.08.2006 |
| 8. | एच. एन. सेठी  | डीईई मुख्यालय, हैदराबाद    | 18.08.2006 |
| 9. | ए. के. मिश्रा | डी.एस.पी. दुर्गापुर        | 19.08.2006 |

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/केओसुब

दिनांक 1 सितम्बर 2006

सं. ई-13013(2)/2/2006/कार्मिक-II/2413--श्री आर. एस. अग्रवाल, सहायक कमान्डेन्ट/कार्य., केओसुब जो इस समय आसूचना ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को दिनांक 12.07.2006 (पूर्वाह) से रुपये 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में केओसुब में उप कमान्डेन्ट के रैंक में 'ठीक निचला नियम' के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

ह./- अपठनीय  
महानिदेशक/केओसुब

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

नई दिल्ली-110066, दिनांक 5 सितम्बर 2006

सं. प्रशा.-II/11073/स.ले.अ./राजपत्र अधिसूचना/जिल्द-2--रक्षा लेखा विभाग के सक्षम प्राधिकारी प्रधान लेखा नियंत्रक (फैक्ट्री), रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक/वित्त एवं लेखा नियंत्रक (फैक्ट्री)/रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा.) एतद्द्वारा उपाबन्ध में दिए गए नाम वाले अनुभाग अधिकारी (लेखा) को उपाबन्ध में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से आगामी आदेश पर्यन्त सहायक लेखा अधिकारी (समूह-ख) के रूप में नियुक्त करते हैं।

शाम देव  
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (परियोजना)

अनुलग्नक

सहायक लेखा अधिकारियों की सूची

| क्रम सं. | नाम          | सहायक लेखा अधिकारी पद पर पदोन्नति की तारीख | संगठन       |
|----------|--------------|--|-------------|
| 1        | 2            | 3  | 4           |
|          | सर्वश्री     |  |             |
| 1.       | आर. एस. रावत | 01.04.2005                                 | महानियंत्रक |
| 2.       | एस. सी. साह  | 01.04.2005                                 | फैक्ट्री    |

| 1   | 2                   | 3          | 4             |
|-----|---------------------|------------|---------------|
| 3.  | बी. एन. सरकार       | 01.04.2005 | फैक्ट्री      |
| 4.  | आर. टी. चव्हाण      | 01.04.2005 | अफसर          |
| 5.  | डी. शन्धामा         | 01.04.2005 | सिकन्दराबाद   |
| 6.  | जनक राज             | 01.04.2005 | म. क.         |
| 7.  | जी. एल. जनोवा       | 01.04.2005 | पेंशन         |
| 8.  | एम. आर. नंदा        | 01.04.2005 | म. क.         |
| 9.  | एस. वेणुगोपाल       | 01.04.2005 | बेंगलूर       |
| 10. | बी. एस. स्वर्णकार   | 01.04.2005 | जबलपुर        |
| 11. | ए. कं. भैमिक        | 01.04.2005 | फैक्ट्री      |
| 12. | एस. एस. देव राय     | 01.04.2005 | गुवाहाटी      |
| 13. | पी. के. रैना        | 01.04.2005 | पेंशन         |
| 14. | के. डी. एस. परमार   | 01.04.2005 | जबलपुर        |
| 15. | डी. वेंकटेश्वर राव  | 01.04.2005 | सिकन्दराबाद   |
| 16. | एम. चट्टोपाध्याय    | 01.04.2005 | नौसेना        |
| 17. | चांदजी भट्ट         | 01.04.2005 | उ. क.         |
| 18. | डी. एन. यादव        | 01.04.2005 | फैक्ट्री      |
| 19. | जे. बी. उपाध्याय    | 01.04.2005 | फैक्ट्री      |
| 20. | के. रामकृष्ण राव    | 01.04.2005 | हैदराबाद      |
| 21. | वी. के. नंदी        | 01.04.2005 | जबलपुर        |
| 22. | रामभज               | 01.04.2005 | पेंशन संवितरण |
| 23. | सुखदेव सिंह         | 01.04.2005 | पेंशन संवितरण |
| 24. | एस. सी. अस्थाना     | 01.04.2005 | जबलपुर        |
| 25. | आर. पी. एस. चव्हाण  | 01.04.2005 | जबलपुर        |
| 26. | बी. एस. चौधरी       | 01.04.2005 | पेंशन संवितरण |
| 27. | हनुमान प्रसाद वर्मा | 01.04.2005 | पेंशन         |
| 28. | रामबाबू             | 01.04.2005 | पेंशन संवितरण |
| 29. | एस. बी. पद्मनाभन    | 01.04.2005 | बेंगलूर       |
| 30. | शिओ कुमार शर्मा     | 01.04.2005 | पेंशन         |
| 31. | राजेन्द्र कुमार     | 01.04.2005 | पेंशन संवितरण |
| 32. | एम. बी. खाती        | 01.04.2005 | फैक्ट्री      |
| 33. | राजेश कालिया        | 01.04.2005 | महानि.        |
| 34. | रमन बमजाई           | 01.04.2005 | म. क.         |
| 35. | श्रीमती एस. सुभद्रा | 01.04.2005 | चेन्नई        |

| 1   | 2                     | 3          | 4           |
|-----|-----------------------|------------|-------------|
| 36. | बी. के. टिक्कू        | 01.04.2005 | उ. क.       |
| 37. | बी. एन. बड़ोनी        | 01.04.2005 | प. क.       |
| 38. | वीरेन्द्र दत्त        | 01.04.2005 | जबलपुर      |
| 39. | यादवेन्द्र सिंह       | 01.04.2005 | फैक्ट्री    |
| 40. | अनिल कुमार गुप्ता     | 01.04.2005 | पेंशन       |
| 41. | पवन कुमार गुप्ता      | 01.04.2005 | सेना        |
| 42. | डी. के. जैन           | 01.04.2005 | द. प. क.    |
| 43. | शिवकुमार रामनाथन      | 01.04.2005 | फैक्ट्री    |
| 44. | पी. प्रेमनंदन नायर    | 01.04.2005 | सिकन्दराबाद |
| 45. | वीरेन्द्र कुमार       | 01.04.2005 | फैक्ट्री    |
| 46. | आर. वेंकटेश अय्यर     | 01.04.2005 | बेंगलूर     |
| 47. | पी. के. जेम्स         | 01.04.2005 | सिकन्दराबाद |
| 48. | गिरिजा किशोर जोशी     | 01.04.2005 | म. क.       |
| 49. | ए. के. श्रीवास्तव     | 01.04.2005 | वा. से.     |
| 50. | बी. पी. सिन्हा        | 01.04.2005 | पटना        |
| 51. | आर. एन. दीक्षित       | 01.04.2005 | फैक्ट्री    |
| 52. | एस. के. सिन्हा        | 01.04.2005 | पटना        |
| 53. | जयकृष्ण बक्शी         | 01.04.2005 | उ. क.       |
| 54. | ए. टी. वाल्के         | 01.04.2005 | फैक्ट्री    |
| 55. | जोसफ थॉमस चिराकाल     | 01.04.2005 | बेंगलूर     |
| 56. | दलबीर सिंह            | 01.04.2005 | म. क.       |
| 57. | अब्राहम जॉर्ज         | 01.04.2005 | फैक्ट्री    |
| 58. | महेन्द्र सिंह         | 01.04.2005 | फैक्ट्री    |
| 59. | पी. के. बिस्वास       | 01.04.2005 | सी. स.      |
| 60. | एम. के. पाणिग्रही     | 01.04.2005 | फैक्ट्री    |
| 61. | एम. रॉय               | 01.04.2005 | गुवाहाटी    |
| 62. | एम. जी. दिवाकर        | 01.04.2005 | बेंगलूर     |
| 63. | पी. रतिना सबापति      | 01.04.2005 | चेन्नई      |
| 64. | ए. के. बनर्जी         | 01.04.2005 | वायुसेना    |
| 65. | बिजेन्द्र सिंह        | 01.04.2005 | बेंगलूर     |
| 66. | ए. एस. डबराल          | 01.04.2005 | फैक्ट्री    |
| 67. | महेश कुमार एल. हेगड़े | 01.04.2005 | फैक्ट्री    |
| 68. | पी. एस. अनंतमूर्ति    | 01.04.2005 | फैक्ट्री    |

| 1    | 2                         | 3          | 4           |
|------|---------------------------|------------|-------------|
| 69.  | ए. के. एस. परमार          | 01.04.2005 | फैक्ट्री    |
| 70.  | शीतल दास                  | 01.04.2005 | सेना        |
| 71.  | अविनाश झिंगयन             | 01.04.2005 | जबलपुर      |
| 72.  | जी. द्विवेदी              | 01.04.2005 | सी. स.      |
| 73.  | वी. चन्द्रन               | 01.04.2005 | द. क.       |
| 74.  | एम. एस. बोहरा             | 01.04.2005 | पेंशन       |
| 75.  | जसपाल सिंह चौधरी          | 01.04.2005 | पेंशन       |
| 76.  | सैयाद मोहम्मद आरिफ चिश्ती | 01.04.2005 | सी. स.      |
| 77.  | के. वी. रमेशन             | 01.04.2005 | चेन्नई      |
| 78.  | वी. सी. मिश्रा            | 01.04.2005 | फैक्ट्री    |
| 79.  | जी. श्री लक्ष्मी हरीश     | 01.04.2005 | बैंगलूर     |
| 80.  | के. कृष्ण मूर्ति          | 01.04.2005 | सिकन्दराबाद |
| 81.  | अनिल कुमार                | 01.04.2005 | म. क.       |
| 82.  | के. प्रभाकर               | 01.04.2005 | सिकन्दराबाद |
| 83.  | एन. के. मालवीय            | 01.04.2005 | फैक्ट्री    |
| 84.  | मुकेश चावला               | 01.04.2005 | जबलपुर      |
| 85.  | मुहम्मद कदरुद्दीन         | 01.04.2005 | महानियंत्रक |
| 86.  | आई. के. ठाकुर             | 01.04.2005 | जबलपुर      |
| 87.  | दिव्या श्रीनिवास          | 01.04.2005 | नौसेना      |
| 88.  | आर. के. बंसल              | 01.04.2005 | पेंशन       |
| 89.  | आर. के. श्रीवास्तव        | 01.04.2005 | फैक्ट्री    |
| 90.  | समर बहादुर सिंह           | 01.04.2005 | पेंशन       |
| 91.  | पार्वती एच. अय्यर         | 01.04.2005 | नौसेना      |
| 92.  | धीरज कुमार                | 01.04.2005 | पेंशन       |
| 93.  | एम. बी. माधवी             | 01.04.2005 | बैंगलूर     |
| 94.  | वी. सुधारानी              | 01.04.2005 | बैंगलूर     |
| 95.  | मनन गुप्ता                | 01.04.2005 | सी. स.      |
| 96.  | टी. अनुराधा               | 01.04.2005 | बैंगलूर     |
| 97.  | बी. शान्तिश्री            | 01.04.2005 | सिकन्दराबाद |
| 98.  | पी. नरसिम्हन              | 01.04.2005 | जबलपुर      |
| 99.  | पी. एन. थोराट             | 01.04.2005 | द. क.       |
| 100. | सी. पी. लाठ               | 01.04.2005 | फैक्ट्री    |

| 1    | 2                   | 3          | 4              |
|------|---------------------|------------|----------------|
| 101. | कमलनैन              | 01.04.2005 | म. क.          |
| 102. | ई. टिकी             | 01.04.2005 | जबलपुर         |
| 103. | वी. के. अग्रवाल     | 01.04.2005 | प. क.          |
| 104. | के. ए. रामाराव      | 01.04.2005 | सिकन्दराबाद    |
| 105. | पी. सी. बोदरा       | 01.04.2005 | पटना           |
| 106. | अजरा जोजो           | 01.04.2005 | पेंशन          |
| 107. | ए. के. चक्रवर्ती    | 01.04.2005 | बैंगलूर        |
| 108. | जे. पी. सिंह        | 01.04.2005 | प. क.          |
| 109. | ए. प्रसाद           | 01.04.2005 | पटना           |
| 110. | आर. राघवन           | 01.04.2005 | फैक्ट्री       |
| 111. | के. एम. खोन्नागडे   | 01.04.2005 | फैक्ट्री       |
| 112. | एस. जी. राजपूत      | 01.04.2005 | अफसर           |
| 113. | आर. एम. पाटिल       | 01.04.2005 | द. क.          |
| 114. | नरेश कुमार सक्सेना  | 01.04.2005 | वा. से.        |
| 115. | एस. एन. गोतपागर     | 01.04.2005 | द. क.          |
| 116. | के. वी. दामले       | 01.04.2005 | अनु. एवं वि.   |
| 117. | एम. जी. बनसूद       | 01.04.2005 | फैक्ट्री       |
| 118. | राजेन्द्र सिंह      | 01.04.2005 | पेंशन          |
| 119. | पी. एन. प्रसाद      | 01.04.2005 | द. क.          |
| 120. | एस. एस. खरे         | 01.04.2005 | म. क.          |
| 121. | सी. के. भोंदे       | 01.04.2005 | द. क.          |
| 122. | एम. ए. गोनाडे       | 01.04.2005 | अफसर           |
| 123. | एस. जी. सवालकर      | 01.04.2005 | फैक्ट्री       |
| 124. | आर. पी. जैन         | 01.04.2005 | फैक्ट्री       |
| 125. | सी. पी. सुन्दाप्पे  | 01.04.2005 | अफसर           |
| 126. | सी. आर. कामथ        | 01.04.2005 | फैक्ट्री       |
| 127. | सी. एस. गुप्ता      | 01.04.2005 | द. प. क.       |
| 128. | एस. वी. बर्वे       | 01.04.2005 | द. क.          |
| 129. | एस. सी. शर्मा       | 01.04.2005 | वा. से.        |
| 130. | ए. आई. कडू          | 01.04.2005 | फैक्ट्री       |
| 131. | लेखराज ककोरिया      | 01.04.2005 | वा. से. दिल्ली |
| 132. | पी. के. ओमानुकुट्टन | 01.04.2005 | नौसेना         |
| 133. | आर. के. शर्मा       | 01.04.2005 | जबलपुर         |

| 1    | 2                  | 3          | 4             | 1    | 2                          | 3          | 4             |
|------|--------------------|------------|---------------|------|----------------------------|------------|---------------|
| 134. | एस. एच. वनजारे     | 01.04.2005 | जबलपुर        | 167. | एस. एस. लाल                | 01.04.2005 | जबलपुर        |
| 135. | राजेश शर्मा        | 01.04.2005 | सेना          | 168. | सत्य प्रकाश सैनी           | 01.04.2005 | वा. से.       |
| 136. | जोगिन्द्र सिंह     | 01.04.2005 | सी. स.        | 169. | यू. कालीमुत्थु             | 01.04.2005 | फैक्ट्री      |
| 137. | देवेन्द्र सिंह     | 01.04.2005 | पेंशन संवितरण | 170. | जी. डॉली                   | 01.04.2005 | गुवाहाटी      |
| 138. | डी. डी. सैनी       | 01.04.2005 | प. क.         | 171. | मनोहर लाल                  | 01.04.2005 | पेंशन         |
| 139. | रामलुभाया          | 01.04.2005 | पेंशन संवितरण | 172. | एल. एस. पी. शस्त्री        | 01.04.2005 | चेन्नई        |
| 140. | संतोख राज          | 01.04.2005 | पेंशन संवितरण | 173. | बिनोय मंडल                 | 01.04.2005 | फैक्ट्री      |
| 141. | गुरदेव             | 01.04.2005 | पेंशन संवितरण | 174. | राजेन्द्र सिंह             | 01.04.2005 | पेंशन         |
| 142. | अशोक कुमार         | 01.04.2005 | फैक्ट्री      | 175. | रंजन कुमार                 | 01.04.2005 | पटना          |
| 143. | धर्मेन्द्र सिंह    | 01.04.2005 | प. क.         | 176. | एस. एन. श्रीवास्तव         | 01.04.2005 | फैक्ट्री      |
| 144. | नरेन्द्र कुमार     | 01.04.2005 | पेंशन संवितरण | 177. | आर. के. गुप्ता             | 01.04.2005 | सेना          |
| 145. | आशीष वराड़े        | 01.04.2005 | द. क.         | 178. | अब्दुल हफीज                | 01.04.2005 | सिकन्दराबाद   |
| 146. | सुरेन्द्र कुमार    | 01.04.2005 | पेंशन         | 179. | के. रमन                    | 01.04.2005 | बेंगलूर       |
| 147. | राजेन्द्र साधु     | 01.04.2005 | पेंशन         | 180. | विवेक जी. कौल              | 01.04.2005 | पेंशन         |
| 148. | बी. शैलजा          | 01.04.2005 | चेन्नई        | 181. | आर. शील                    | 01.04.2005 | गुवाहाटी      |
| 149. | अच्छे लाल          | 01.04.2005 | जबलपुर        | 182. | तेज सिंह अधिकारी           | 01.04.2005 | म. क.         |
| 150. | सतीश कुमार         | 01.04.2005 | महानियंत्रक   | 183. | वन्दना कुनियाल             | 01.04.2005 | प. क.         |
| 151. | राजकुमार           | 01.04.2005 | पेंशन संवितरण | 184. | रथिन्द्र नाथ दत्ता         | 01.04.2005 | फैक्ट्री      |
| 152. | एस. के. सिन्हा     | 01.04.2005 | पटना          | 185. | बी. के. राधा               | 01.04.2005 | फैक्ट्री      |
| 153. | आर. बी. शर्मा      | 01.04.2005 | पटना          | 186. | एच. जे. जालते              | 01.04.2005 | द. क.         |
| 154. | राजीव सक्सेना      | 01.04.2005 | वा. से.       | 187. | विनोद कुमार                | 01.04.2005 | सेना          |
| 155. | डी. एस. एस. बनर्जी | 01.04.2005 | फैक्ट्री      | 188. | नीरजा गुप्ता               | 01.04.2005 | पेंशन संवितरण |
| 156. | आशीष कुमार ठाकुर   | 01.04.2005 | पटना          | 189. | पी. एस. वी. नगेन्द्र कुमार | 01.04.2005 | बेंगलूर       |
| 157. | आर. के. श्रीवास्तव | 01.04.2005 | फैक्ट्री      | 190. | आर. पी. शिवकन्द            | 01.04.2005 | सी. स.        |
| 158. | एम.ई. मंडलिक       | 01.04.2005 | द. क.         | 191. | के. आशा                    | 01.04.2005 | बेंगलूर       |
| 159. | अनिल कुमार वर्मा   | 01.04.2005 | प. क.         | 192. | एन. राजेश्वरी              | 01.04.2005 | महानियंत्रक   |
| 160. | अतुल कुमार दीक्षित | 01.04.2005 | फैक्ट्री      | 193. | एम. टी. घरे                | 01.04.2005 | सिकन्दराबाद   |
| 161. | उपेन्द्र कुमार     | 01.04.2005 | पटना          | 194. | टी. रामामूर्ति             | 01.04.2005 | फैक्ट्री      |
| 162. | एन. के. दूबे       | 01.04.2005 | फैक्ट्री      | 195. | लक्ष्मी सुदर्शम            | 01.04.2005 | बेंगलूर       |
| 163. | आर. पी. वर्मा      | 01.04.2005 | फैक्ट्री      | 196. | राकेश कौल                  | 01.04.2005 | पेंशन संवितरण |
| 164. | सुमन के. वर्मा     | 01.04.2005 | पटना          | 197. | मणिकान्त मंडल              | 01.04.2005 | फैक्ट्री      |
| 165. | मोनिका             | 01.04.2005 | पेंशन संवितरण | 198. | कैलाश चन्द्र               | 01.04.2005 | वा. से.       |
| 166. | इन्दर फोतेदार      | 01.04.2005 | महानियंत्रक   |      |                            |            |               |



| 1    | 2                              | 3          | 4             | 1    | 2                    | 3          | 4              |
|------|--------------------------------|------------|---------------|------|----------------------|------------|----------------|
| 199. | गौतम दास गुप्ता                | 01.04.2005 | पेंशन         | 231. | एम. बीना             | 01.04.2005 | फैक्ट्री       |
| 200. | के. रवि कुमार                  | 01.04.2005 | फैक्ट्री      | 232. | आर. के. सिंह         | 01.04.2005 | पटना           |
| 201. | बी. एस. जमवल                   | 01.04.2005 | म. क.         | 233. | एम. बी. सुब्रमणियम   | 01.04.2005 | सिकन्दराबाद    |
| 202. | आर. सिंघा                      | 01.04.2005 | गुवाहाटी      | 234. | प्रमोद कुमार जैन     | 01.04.2005 | सेना           |
| 203. | एस. डे. सरकार                  | 01.04.2005 | वा. से.       | 235. | स्वामीनाथ            | 01.04.2005 | पटना           |
| 204. | सुभाष चन्द्र                   | 01.04.2005 | उ. क.         | 236. | रविन्द्र             | 01.04.2005 | महानियंत्रक    |
| 205. | प्रताप प्रसाद                  | 01.04.2005 | पेंशन         | 237. | पनाकल डालटन थामस     | 01.04.2005 | कै. भं.        |
| 206. | प्रताप चंद                     | 01.04.2005 | पेंशन संवितरण | 238. | विष्णुप्रिया         | 01.04.2005 | फैक्ट्री       |
| 207. | मोहन पाण्डे                    | 01.04.2005 | म. क.         | 239. | एस. मदन              | 01.04.2005 | बेंगलूर        |
| 208. | एस. कत्सला                     | 01.04.2005 | सिकन्दराबाद   | 240. | आकाशदीप पी. राय      | 01.04.2005 | द. क.          |
| 209. | बीना एस. इनामदार               | 01.04.2005 | वा. से.       | 241. | एन. जी. ठक्कर        | 01.04.2005 | द. क.          |
| 210. | शत्रुहन सिंह                   | 01.04.2005 | म. क.         | 242. | एस. रवि कुमार        | 01.04.2005 | सिकन्दराबाद    |
| 211. | समीर सक्सेना                   | 01.04.2005 | फैक्ट्री      | 243. | एल. पदमपनी           | 01.04.2005 | बेंगलूर        |
| 212. | पियुश अग्रवाल                  | 01.04.2005 | पेंशन         | 244. | अनिल कुमार           | 01.04.2005 | वा.से. दिल्ली  |
| 213. | बी. के. के. नायर               | 01.04.2005 | महानियंत्रक   | 245. | कमलेन्दु कुमार       | 01.04.2005 | अफसर           |
| 214. | एस. नौशाद                      | 01.04.2005 | फैक्ट्री      | 246. | युक्तार्थ मिश्रा     | 01.04.2005 | फैक्ट्री       |
| 215. | हीरा लाल                       | 01.04.2005 | सी. स.        | 247. | गोपाल प्रसाद अग्रवाल | 01.04.2005 | द. क.          |
| 216. | एम. ए. साबिर                   | 01.04.2005 | सिकन्दराबाद   | 248. | पुरेन्द्र देवांगन    | 01.04.2005 | जबलपुर         |
| 217. | एम. श्रीनिवास राव              | 01.04.2005 | सिकन्दराबाद   | 249. | राजीव रंजन सिन्हा    | 01.04.2005 | वा. से. दिल्ली |
| 218. | जी. आर. सावंत                  | 01.04.2005 | द. क.         | 250. | संदीप कुमार          | 01.04.2005 | फैक्ट्री       |
| 219. | जे. एम. पायस                   | 01.04.2005 | अफसर          | 251. | सीमा विनायक कुडवा    | 01.04.2005 | नौसेना         |
| 220. | पल्लवी एस. गरगाटे              | 01.04.2005 | बेंगलूर       | 252. | एस. सैमल             | 01.04.2005 | फैक्ट्री       |
| 221. | काल कामेश्वरी                  | 01.04.2005 | अफसर          | 253. | आर. के. एस. सेंगर    | 01.04.2005 | जबलपुर         |
| 222. | ए. के. निगम                    | 01.04.2005 | फैक्ट्री      | 254. | संदीप वर्मा          | 01.04.2005 | फैक्ट्री       |
| 223. | बी. एस. राणा                   | 01.04.2005 | म. क.         | 255. | बी. गुरुमूर्ति       | 01.04.2005 | जबलपुर         |
| 224. | एस. कृष्णन                     | 01.04.2005 | फैक्ट्री      | 256. | सी. सी. चटर्जी       | 01.04.2005 | फैक्ट्री       |
| 225. | पी. विजयानंद                   | 01.04.2005 | द. क.         | 257. | अभय कुमार            | 01.04.2005 | फैक्ट्री       |
| 226. | संजय कुमार                     | 01.04.2005 | म. क.         | 258. | परेश कुमार पति       | 01.04.2005 | फैक्ट्री       |
| 227. | अजय बाजपेयी                    | 01.04.2005 | फैक्ट्री      | 259. | डी. के. परीदा        | 01.04.2005 | फैक्ट्री       |
| 228. | सुरेश कुमार                    | 01.04.2005 | प. क.         | 260. | सी. के. मिश्रा       | 01.04.2005 | फैक्ट्री       |
| 229. | डी. एस. आर. एल.<br>नरसिम्हाराव | 01.04.2005 | द. क.         | 261. | के. सी. अग्रवाल      | 01.04.2005 | फैक्ट्री       |
| 230. | के. एस. नंदरा                  | 01.04.2005 | फैक्ट्री      | 262. | तरुण कुमार वर्मा     | 01.04.2005 | फैक्ट्री       |
|      |                                |            |               | 263. | बिजय कुमार           | 01.04.2005 | फैक्ट्री       |

| 1    | 2                     | 3          | 4              | 1    | 2                   | 3          | 4             |
|------|-----------------------|------------|----------------|------|---------------------|------------|---------------|
| 264. | सुजीत कुमार सिंह      | 03.04.2006 | पटना           | 298. | सुभाष चन्द्र सुखीजा | 03.04.2006 | नई दिल्ली     |
| 265. | हरेन्द्र बाबू देवा    | 03.04.2006 | सेना           | 299. | वाई. मुथय्या        | 03.04.2006 | बैंगलूर       |
| 266. | डी. वी. शिन्दे        | 03.04.2006 | द. क.          | 300. | एस. के. वर्मा       | 03.04.2006 | जबलपुर        |
| 267. | एस. वाई. लाले         | 03.04.2006 | द. क.          | 301. | बलवीर चन्द          | 03.04.2006 | सेना          |
| 268. | वी. एम. कुम्हार       | 03.04.2006 | द. क.          | 302. | रमेश जी. ए.         | 03.04.2006 | पेंशन         |
| 269. | अशोक कुमार बनर्जी     | 03.04.2006 | चेन्नई         | 303. | मनोहर लाल           | 03.04.2006 | पेंशन         |
| 270. | जे. पी. कोरी          | 03.04.2006 | जबलपुर         | 304. | राजकुमार            | 03.04.2006 | वा. से.       |
| 271. | एम. एम. पिल्लै        | 03.04.2006 | सिकन्दराबाद    | 305. | कुलदीप लाल          | 03.04.2006 | पेंशन         |
| 272. | जे. पी. सिन्हा        | 03.04.2006 | पटना           | 306. | कुलदीप राज          | 03.04.2006 | उ. क.         |
| 273. | हीरामणी यादव          | 03.04.2006 | पेंशन          | 307. | थोमस त्रिलोक        | 03.04.2006 | प. क.         |
| 274. | एस. के. जैन           | 03.04.2006 | द. प. क.       | 308. | पी. के. सहीरे       | 03.04.2006 | द. क.         |
| 275. | मोहम्मद सलीम खान      | 03.04.2006 | प. क.          | 309. | के. पी. सिंह        | 03.04.2006 | महानियंत्रक   |
| 276. | ए. वाई. पाटिल         | 03.04.2006 | द. क.          | 310. | सत्य नारायण         | 03.04.2006 | फैक्ट्री      |
| 277. | विजय कुमार श्रीवास्तव | 03.04.2006 | पटना           | 311. | वीरेन्द्र कुमार     | 03.04.2006 | पेंशन         |
| 278. | एस. ए. अंसारी         | 03.04.2006 | म. क.          | 312. | कैनेडी मित्तल       | 03.04.2006 | द. प. क.      |
| 279. | जयातु चौधरी           | 03.04.2006 | फैक्ट्री       | 313. | रंधीर सिंह जसरोतिया | 03.04.2006 | प. क.         |
| 280. | एस. के. पंडित         | 03.04.2006 | प. क.          | 314. | के. राम नारायण चारी | 03.04.2006 | द. क.         |
| 281. | ए. के. कौल            | 03.04.2006 | प. क.          | 315. | रंकज रैना           | 03.04.2006 | सी. स.        |
| 282. | वी. जी. पाटिल         | 03.04.2006 | द. क.          | 316. | बलराज चंदेल         | 03.04.2006 | पेंशन संवितरण |
| 283. | जे. एस. थुलकर         | 03.04.2006 | फैक्ट्री       | 317. | अजय शर्मा           | 03.04.2006 | म. क.         |
| 284. | ए. वी. मंगापती राव    | 03.04.2006 | द. क.          | 318. | के. के. कलिता       | 03.04.2006 | गुवाहाटी      |
| 285. | पी. एन. भालेराव       | 03.04.2006 | द. क.          | 319. | समरिन दास           | 03.04.2006 | पेंशन         |
| 286. | एल. सी. राव           | 03.04.2006 | नौसेना         | 320. | वी. के. पॉल         | 03.04.2006 | फैक्ट्री      |
| 287. | एम. मधुमती            | 03.04.2006 | बैंगलूर        | 321. | दिलीप कुमार         | 03.04.2006 | महानि.        |
| 288. | के. नरसिम्हा राव      | 03.04.2006 | सिकन्दराबाद    | 322. | वी. धनंजय शर्मा     | 03.04.2006 | पेंशन         |
| 289. | प्रकाश चन्द्र शर्मा   | 03.04.2006 | प. क.          | 323. | पी. के. बोहरा       | 03.04.2006 | द. क.         |
| 290. | वाई. वी. मुरली कृष्ण  | 03.04.2006 | सिकन्दराबाद    | 324. | एस.सी. खुराना       | 03.04.2006 | फैक्ट्री      |
| 291. | कुमारी हिमाश्री घोष   | 03.04.2006 | फैक्ट्री       | 325. | श्रीमती बिजया दत्ता | 03.04.2006 | अफसर          |
| 292. | अजय खुल्लर            | 03.04.2006 | सेना           | 326. | सुनील रैना          | 03.04.2006 | प. क.         |
| 293. | एन. एल. साहू          | 03.04.2006 | जबलपुर         | 327. | लक्ष्मण सिंह        | 03.04.2006 | म. क.         |
| 294. | अरुण कुमार शिवपुरी    | 03.04.2006 | वा. से. दिल्ली | 328. | टी. सी. कुरील       | 03.04.2006 | फैक्ट्री      |
| 295. | एम. पी. सोनी          | 03.04.2006 | पेंशन          | 329. | एस. जे. बजाज        | 03.04.2006 | कै. भ. वि     |
| 296. | सुनील कुमार दहिया     | 03.04.2006 | वा. से. दिल्ली | 330. | वी. के. शर्मा       | 03.04.2006 | प. क.         |
| 297. | डी. के. दीक्षित       | 03.04.2006 | उ. क.          |      |                     |            |               |

| 1    | 2                   | 3          | 4             | 1    | 2                         | 3          | 4             |
|------|---------------------|------------|---------------|------|---------------------------|------------|---------------|
| 331. | जी. सी. साहा        | 03.04.2006 | पटना          | 364. | कमलेन्दू भागवती           | 03.04.2006 | पेंशन         |
| 332. | एस. बी. कुलकर्णी    | 03.04.2006 | द. क.         | 365. | एम. एन. अजीज-उर-<br>रहमान | 03.04.2006 | बेंगलूर       |
| 333. | परीक्षित शर्मा      | 03.04.2006 | प. क.         | 366. | जी. सिव रामकृष्णन         | 03.04.2006 | द. क.         |
| 334. | आर. के. खन्ना       | 03.04.2006 | जबलपुर        | 367. | श्रीमती सी. आर. जयश्री    | 03.04.2006 | सिकन्दराबाद   |
| 335. | राजीव कुमार         | 03.04.2006 | म. क.         | 368. | राजीव कौशल                | 03.04.2006 | सेना          |
| 336. | नियामुद्दीन खान     | 03.04.2006 | म. क.         | 369. | बी. वेंकटराव              | 03.04.2006 | द. क.         |
| 337. | एम. हीरानंदु सिंह   | 03.04.2006 | पेंशन         | 370. | सुभाष चन्द्र              | 03.04.2006 |               |
| 338. | श्रीमती पवनजीन कौर  | 03.04.2006 | प. क.         | 371. | ए. के. मौर्य              | 03.04.2006 | द. प. क.      |
| 339. | एन. बी. राम कुमार   | 03.04.2006 | अफसर          | 372. | समीर कुमार                | 03.04.2006 | पेंशन         |
| 340. | रमेश बी. जादव       | 03.04.2006 | नौसेना        | 373. | डी. के. शर्मा             | 03.04.2006 | फैक्ट्री      |
| 341. | डी. के. सिन्हा      | 03.04.2006 | जबलपुर        | 374. | एम. जे. रहमान             | 03.04.2006 | द. क.         |
| 342. | संजीव कुमार         | 03.04.2006 | म. क.         | 375. | एम. रामचन्द्रन            | 03.04.2006 | वा. से.       |
| 343. | श्रीमती नीलम कपूर   | 03.04.2006 | पेंशन संवितरण | 376. | कृष्ण लाल                 | 03.04.2006 | फैक्ट्री      |
| 344. | एम. ए. देशपाण्डे    | 03.04.2006 | द. क.         | 377. | एम. वेंकटराव              | 03.04.2006 | द. क.         |
| 345. | आर. पी. सावंत       | 03.04.2006 | नौसेना        | 378. | ए. पी. श्रीनिवासन         | 03.04.2006 | बेंगलूर       |
| 346. | सतीश बी. घाघ        | 03.04.2006 | नौसेना        | 379. | एस. एम. झा                | 03.04.2006 | म. क.         |
| 347. | केवल कृष्ण          | 03.04.2006 | प. क.         | 380. | टी. गोपीनाथ               | 03.04.2006 | द. क.         |
| 348. | धर्मेस एच. शर्मा    | 03.04.2006 | नौसेना        | 381. | एम. के. पंडित             | 03.04.2006 | म. क.         |
| 349. | प्रदीप कुमार        | 03.04.2006 | जबलपुर        | 382. | राजेश कुमार               | 03.04.2006 | फैक्ट्री      |
| 350. | टी. के. जयकुमार     | 03.04.2006 | फैक्ट्री      | 383. | ए. ए. महाजन               | 03.04.2006 | द. क.         |
| 351. | मेहर सिंह           | 03.04.2006 | पेंशन संवितरण | 384. | टी. आर. मेहता             | 03.04.2006 | जबलपुर        |
| 352. | हसन लाल             | 03.04.2006 | जबलपुर        | 385. | महमूद हुसैन लसकर          | 03.04.2006 | पेंशन         |
| 353. | बी. बी. राउत        | 03.04.2006 | फैक्ट्री      | 386. | डिगन्ता कुमार गोर्गई      | 03.04.2006 | सी. स.        |
| 354. | एस. श्रीनाथ         | 03.04.2006 | अफसर          | 387. | जी. आर. बारापत्रे         | 03.04.2006 | द. क.         |
| 355. | अनिल शर्मा          | 03.04.2006 | वा. से.       | 388. | विमल किशोर गुप्ता         | 03.04.2006 | उ. क.         |
| 356. | लथा भवानी टी.       | 03.04.2006 | बेंगलूर       | 389. | एम. एस. होकिप             | 03.04.2006 | प. क.         |
| 357. | सोम सुन्दरम एम. पी. | 03.04.2006 | फैक्ट्री      | 390. | बिधि चन्द                 | 03.04.2006 | पेंशन संवितरण |
| 358. | एम. मुनीराज         | 03.04.2006 | फैक्ट्री      | 391. | मोहिन्द्र पाल             | 03.04.2006 | जबलपुर        |
| 359. | संजीव ओबराय         | 03.04.2006 | उ. क.         | 392. | चरनजीत सिंह               | 03.04.2006 | जबलपुर        |
| 360. | अमित मित्रो         | 03.04.2006 | जबलपुर        | 393. | इन्द्रमोहन                | 03.04.2006 | पेंशन संवितरण |
| 361. | महेश प्रजापति       | 03.04.2006 | पेंशन संवितरण | 394. | टी. श्याम सुन्दर राव      | 03.04.2006 | द. क.         |
| 362. | एन. ए. भट्टी        | 03.04.2006 | उ. क.         | 395. | एम. हेमा गंगाधर           | 03.04.2006 | द. क.         |
| 363. | संजय संदोतरा        | 03.04.2006 | जबलपुर        |      |                           |            |               |

| 1    | 2                      | 3          | 4              |
|------|------------------------|------------|----------------|
| 396. | सुख मथाई               | 03.04.2006 | नौसेना         |
| 397. | संजीव शर्मा            | 03.04.2006 | फैक्ट्री       |
| 398. | एम. प्रवीण कुमार       | 03.04.2006 | द. क.          |
| 399. | मोहिन्द्र सिंह सांबयात | 03.04.2006 | फैक्ट्री       |
| 400. | विपन कुमार             | 03.04.2006 | पेंशन संवितरण  |
| 401. | एस. एस. शुक्ला         | 03.04.2006 | जबलपुर         |
| 402. | के. जी. एस. वी. प्रसाद | 03.04.2006 | बेंगलूर        |
| 403. | पाल राम                | 03.04.2006 | म. क.          |
| 404. | राजिन्द्र सिंह         | 03.04.2006 | फैक्ट्री       |
| 405. | प्रभु नैथानी           | 03.04.2006 | अनु. एवं विकास |
| 406. | घनश्याम दास जैन        | 03.04.2006 | म. क.          |
| 407. | बलबीर सिंह             | 03.04.2006 | पेंशन संवितरण  |
| 408. | मोहम्मद हुसैन अहमद     | 03.04.2006 | म. क.          |
| 409. | संजीव कुमार            | 03.04.2006 | म. क.          |
| 410. | श्रीमती एस. आर. बोएड   | 03.04.2006 | अफसर           |
| 411. | एस. रेखा               | 03.04.2006 | बेंगलूर        |
| 412. | ए. एन. सिन्हा          | 03.04.2006 | पटना           |
| 413. | सी. राजगोपालन          | 03.04.2006 | द. क.          |
| 414. | स्वर्ण ज्योति कुमुद    | 03.04.2006 | बेंगलूर        |
| 415. | रोबिन जे. डिसूजा       | 03.04.2006 | नौसेना         |
| 416. | ए. एल. भगत             | 03.04.2006 | नौसेना         |
| 417. | सिद्धा रामप्पा बी.     | 03.04.2006 | बेंगलूर        |
| 418. | सैयद मोहम्मद फारुक     | 03.04.2006 | द. प. क.       |
| 419. | आर. जय कुमार           | 03.04.2006 | फैक्ट्री       |
| 420. | नरेन्द्र पॉल           | 03.04.2006 | द. प. क.       |
| 421. | बी. एस. चक्रवर्ती      | 03.04.2006 | फैक्ट्री       |
| 422. | जोगिन्द्र नाथ          | 03.04.2006 | पेंशन          |
| 423. | जी. रामबाबू            | 03.04.2006 | अफसर           |
| 424. | संध्या लिंगेश          | 03.04.2006 | बेंगलूर        |
| 425. | के. सुनील कुमार        | 03.04.2006 | द. क.          |
| 426. | वासु कुमार एन.         | 03.04.2006 | द. क.          |
| 427. | एम. के. चौकसी          | 03.04.2006 | जबलपुर         |
| 428. | श्रीमती सुनीता तिवारी  | 03.04.2006 | द. क.          |

| 1    | 2                         | 3          | 4           |
|------|---------------------------|------------|-------------|
| 429. | के. के. झा                | 03.04.2006 | पटना        |
| 430. | बी. एम. सरकार             | 03.04.2006 | जबलपुर      |
| 431. | आर. के. शर्मा             | 03.04.2006 | जबलपुर      |
| 432. | टी. वी. वेंकटेश्वरन       | 03.04.2006 | चेन्नई      |
| 433. | पवन कुमार सिंह            | 03.04.2006 | महानियंत्रक |
| 434. | ए. जया भारती              | 03.04.2006 | बेंगलूर     |
| 435. | राजीव कुमार               | 03.04.2006 | द. क.       |
| 436. | बिस्वजीत घोष              | 03.04.2006 | म. क.       |
| 437. | अनुराग सिक्का             | 03.04.2006 | प. क.       |
| 438. | शैलेन्द्र कुमार           | 03.04.2006 | फैक्ट्री    |
| 439. | मोहन कुमार                | 03.04.2006 | द. क.       |
| 440. | श्रीमती वैशाली आर. डिसूजा | 03.04.2006 | नौसेना      |
| 441. | चयन दास                   | 03.04.2006 | जबलपुर      |
| 442. | ए. ए. महाजन               | 03.04.2006 | द. क.       |
| 443. | प्रसन्नजीत डे             | 03.04.2006 | जबलपुर      |
| 444. | राजीव कुमार गर्ग          | 03.04.2006 | पेंशन       |
| 445. | प्रवीण कक्कड़             | 03.04.2006 | प. क.       |
| 446. | श्रीमती चित्रा रामानुज    | 03.04.2006 | अफसर        |
| 447. | ए. कुण्डू                 | 03.04.2006 | फैक्ट्री    |
| 448. | नवनील गुहा                | 03.04.2006 | फैक्ट्री    |
| 449. | बिन्सू एस. नायर           | 03.04.2006 | चेन्नई      |
| 450. | के. शिव शंकर              | 03.04.2006 | फैक्ट्री    |
| 451. | मनोज कुमार                | 03.04.2006 | सेना        |
| 452. | श्रीमती तेजल बी. भोटे     | 03.04.2006 | नौसेना      |
| 453. | श्रीमती विद्या राजेश      | 03.04.2006 | अफसर        |
| 454. | जे. बी. बग                | 03.04.2006 | पटना        |
| 455. | बी. के. गुप्ता            | 03.04.2006 | फैक्ट्री    |
| 456. | आर. सत्यनारायण            | 03.04.2006 | अफसर        |
| 457. | आर. सी. पटनायक            | 03.04.2006 | फैक्ट्री    |
| 458. | श्रीमती दीपा परमेश्वरम    | 03.04.2006 | नौसेना      |

| 1    | 2                        | 3          | 4                        |
|------|--------------------------|------------|--------------------------|
| 459. | सी. एच. विजय चन्द        | 03.04.2006 | द. क.                    |
| 460. | ए. एस. श्रीलता श्रीनिवास | 03.04.2006 | अनु. एवं वि.<br>हैदराबाद |
| 461. | एम. सी. जोशी             | 03.04.2006 | म. क.                    |
| 462. | आर. एम. दास              | 03.04.2006 | जबलपुर                   |
| 463. | जे. एम. लाभाने           | 03.04.2006 | फैक्ट्री                 |
| 464. | टी. सुन्दर वेदीवेल       | 03.04.2006 | चेन्नई                   |
| 465. | पी. वी. एस. पवन कुमार    | 03.04.2006 | सी. स.                   |
| 466. | ए. श्रीनिवास             | 03.04.2006 | अफसर                     |
| 467. | ए. जी. एस. सत्य प्रसाद   | 03.04.2006 | अफसर                     |
| 468. | एम. सतीश कुमार           | 03.04.2006 | अफसर                     |
| 469. | मोहम्मद खाजा मोहीउद्दीन  | 03.04.2006 | द. क.                    |
| 470. | अजय कुमार                | 03.04.2006 | म. क.                    |
| 471. | हरीश अलरेजा              | 03.04.2006 | महानियंत्रक              |
| 472. | सुनील कुमार दहिया        | 03.04.2006 | पटना                     |
| 473. | एम. आर. आचार्य           | 03.04.2006 | फैक्ट्री                 |
| 474. | टी. आर. द्विवेदी         | 03.04.2006 | जबलपुर                   |
| 475. | दीपक मलिक                | 03.04.2006 | नई दिल्ली                |
| 476. | सी. राजशेखरन             | 03.04.2006 | फैक्ट्री                 |
| 477. | एस. पी. जेना             | 03.04.2006 | फैक्ट्री                 |
| 478. | वी. सी. शिवप्रिया        | 03.04.2006 | चेन्नई                   |
| 479. | एस. डी. शर्मा            | 03.04.2006 | म. क.                    |
| 480. | वी. के. जाड़िया          | 03.04.2006 | जबलपुर                   |
| 481. | प्रमोद कुमार             | 03.04.2006 | जबलपुर                   |
| 482. | राजेश कुमार गुप्ता       | 03.04.2006 | फैक्ट्री                 |
| 483. | अनिल कुमार               | 03.04.2006 | पेंशन                    |
| 484. | संजय रामसिधानी           | 03.04.2006 | फैक्ट्री                 |
| 485. | प्रभात कुमार अग्रवाल     | 03.04.2006 | वा. से.                  |
| 486. | अजय कुमार शर्मा          | 03.04.2006 | फैक्ट्री                 |
| 487. | मंजीत कुमार              | 03.04.2006 | फैक्ट्री                 |
| 488. | विलास भीमटो              | 03.04.2006 | द. क.                    |
| 489. | एस. एस. भार्गव           | 03.04.2006 | फैक्ट्री                 |

श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय  
(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171004, दिनांक 31 अगस्त 2006

सं. 5/1/2006-एन.सी.पी.आई.--जुलाई, 2006 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001 = 100) 1 अंक बढ़कर 124 (एम सी चौबीस) अंक के स्तर पर रहा।

आर. के. गुप्ता  
उप निदेशक

खान मंत्रालय  
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-16, दिनांक 29 अगस्त 2006

सं. 1750/बी/ए-32013/1-भूवै. (वरि.)/2002-2003/19ए--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी, श्री एस. के. त्रिपाठी, भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को इसी विभाग में तथा 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर भूवैज्ञानिक (वरिष्ठ) के पद पर पदोन्नति पर नियमित आधार पर सिद्धान्ततः 06.02.2003 (पूर्वाह) से अर्थात् भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) की श्रेणी में उनके निकटतम कनिष्ठ श्री ए. पी. पई की भूवैज्ञानिक (वरिष्ठ) के पद पर पदोन्नति की तिथि से तथा 12.12.2005 (पूर्वाह) को टी.एच.पी.ए. भूटन से प्रत्यावर्तन पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी रूप से अग्रिम आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी  
कृते महानिदेशक

दिनांक 30 अगस्त 2006

सं. 1772/बी/ए-19011(1-बी.एन.एम.)/05/19ए--राष्ट्रपति जी, श्री बासब नन्दन महंत को भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) (समूह-'क' राजपत्रित) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान के न्यूनतम वेतन में अस्थायी रूप में 30.01.2006 के पूर्वाह से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी  
कृते महानिदेशक

दिनांक 1 सितम्बर 2006

सं. 2311/सी/ए-35018(सामान्य)/2001/19सी, खण्ड-I--राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता में प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रारंभिक 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए उपनिदेशक (प्रशासन) के रूप में अपना नया कार्यभार ग्रहण करने के लिए श्री ए. एस. संधिविड्वेल, प्रशासन अधिकारी श्रेणी-I, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, दक्षिणी क्षेत्र,

हैदराबाद ने प्रशासन अधिकारी श्रेणी-I का अपना कार्यभार 01.05.2006 (पूर्वाह्न) को छोड़ दिया है।

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी  
कृते महानिदेशक

दिनांक 4 सितम्बर 2006

सं. 1567ए/ए-32013/5-निदे. (यां.अभि.)/2002-06/19वीं--  
विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी, श्री हंसराज  
चावला, यांत्रिक अभियंता (वरिष्ठ), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की  
पदोन्नति पर नियुक्ति निदेशक (यांत्रि. अभि.) के रूप में भारतीय  
भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रुपये 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में  
नियमानुसार वेतन पर, नियमित आधार पर 21.07.2006 (पूर्वाह्न) से  
प्रभावित आगामी आदेशों तक अनुमोदित करते हैं।

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी  
कृते महानिदेशक

भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून-248001, दिनांक 30 अगस्त 2006

सं. सी.-295/1800(1)--निम्नलिखित ग्रुप 'सी' मानचित्रकार  
डिवीज़न-I की भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उनके नाम के सम्मुख दी गई  
तिथि से नियमित आधार पर मुख्य मानचित्रकार ग्रुप 'बी' (राजपत्रित,  
अलिपिक वर्गीय) के पद पर रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान  
में पदोन्नति की जाती है :--

| क्रम सं. | नाम                                     | पदोन्नति की तिथि |
|----------|---|------------------|
| 1.       | श्री सी. एल. कौल<br>(अनुसूचित जन जाति)  | 01.08.2006       |
| 2.       | श्री सी. एस. नेगी<br>(अनुसूचित जन जाति) | 30.06.2006       |
| 3.       | श्री के. सी. वर्मा                      | 31.03.2006       |
| 4.       | श्री बी. के. चटर्जी                     | 30.03.2006       |

एम. गोपाल राव  
मेजर जनरल  
भारत के महासर्वेक्षक

परमाणु ऊर्जा विभाग  
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र

कोलकाता-700064, दिनांक 1 सितम्बर 2006

सं. वीईसीसी/नियुक्ति/2003/2900--राष्ट्रपति, प्रसन्नता पूर्वक  
डॉ. गोपाल मुधाजी को इसी केन्द्र पर वैज्ञानिक अधिकारी (डी), वेतनमान

(रु. 10,000-325-15,200/-), परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु  
ऊर्जा विभाग, कोलकाता में जुलाई 19, 2006 के अपराह्न से अगले  
आदेश निकलने तक अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

एस. वी. वोस  
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. वीईसीसी/नियुक्ति/2003/2901--राष्ट्रपति, प्रसन्नता पूर्वक श्री अजय  
कुमार शिमांशु को इसी केन्द्र पर वैज्ञानिक अधिकारी (सी), वेतनमान  
(रु. 8,000-275-13,500/-), परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु  
ऊर्जा विभाग, कोलकाता में मार्च 1, 2006 के अपराह्न से अगले आदेश  
निकलने तक अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

एस. वी. वोस  
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. वीईसीसी/नियुक्ति/2003/2902--राष्ट्रपति, प्रसन्नता पूर्वक श्री तपन  
कुमार मान्डि को इसी केन्द्र पर वैज्ञानिक अधिकारी (सी), वेतनमान  
(रु. 8,000-275-13,500/-), परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु  
ऊर्जा विभाग, कोलकाता में अप्रैल 10, 2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेश  
निकलने तक अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

एस. वी. वोस  
प्रशासनिक अधिकारी-III

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर-452013, दिनांक 25 अगस्त 2006

सं. सराकेट/प्रशा./भ-807(I)/779--निदेशक, राजा रामन्ना प्रगत  
प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर एतद्वारा श्री यू. वी. रामाजनेयुलु, सहायक लेखा  
अधिकारी, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद को लेखा अधिकारी के पद  
पर रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में दिनांक 21 अगस्त 2006  
की पूर्वाह्न से राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में स्थापनापन  
रूप से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

डी. एस. राव  
मुख्य प्रशासन अधिकारी

क्रय और भंडार निदेशालय

मुम्बई-400094, दिनांक 30 अगस्त 2006

सं. क्रभनि/10015/भर्ती/3746--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार  
निदेशालय के निदेशक ने केन्द्रीय भंडार एकक, क्रभनि, मुम्बई के भंडारी  
श्रीमती राधा हरिहरण को उसी एकक में दिनांक 26.06.2006 (पूर्वाह्न)  
से 28.07.2006 (अपराह्न) तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान  
में सहायक भंडार अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त  
किया है।

किशन टी. लोंडे  
प्रशासन अधिकारी-III

सं. क्रमनि/10015/भर्ती/3748--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने केन्द्रीय भंडार एकक, क्रमनि, मुम्बई के भंडारी श्रीमती मेरी झकारीया को उसी एकक में दिनांक 13.02.2006 (पूर्वाह) से 31.03.2006 (अपराह) तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में सहायक भंडार अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

किशन टी. लोंडे  
प्रशासन अधिकारी-III

सं. क्रमनि/10015/भर्ती/3749--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने केन्द्रीय भंडार एकक, क्रमनि, मुम्बई के भंडारी श्रीमती मेरी झकारीया को उसी एकक में दिनांक 19.06.2006 (पूर्वाह) से 21.07.2006 (अपराह) तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में सहायक भंडार अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

किशन टी. लोंडे  
प्रशासन अधिकारी-III

#### भारी पानी बोर्ड

मुम्बई-400094, दिनांक 24 अगस्त 2006

सं. भापाबो/भर्ती/1(53)/2006/817--राष्ट्रपति, कुमारी अमिता मालवी को दिनांक अगस्त 05, 2006 के पूर्वाह से आगामी आदेशों तक रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/सी (साफ्टवेयर) के पद पर भारी पानी संयंत्र (कोटा), राजस्थान में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

पी. अप्पाराव  
प्रशासन अधिकारी

मुम्बई-400094, दिनांक 29 अगस्त 2006

सं. भापाबो/भर्ती/4(15)/2005/831--राष्ट्रपति, भारी पानी संयंत्र (तालचेर) के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/सी को वैज्ञानिक अधिकारी/डी के पद पर दिनांक 01 अगस्त, 2005 के पूर्वाह से आगामी आदेशों तक अपने ही कार्यालय में रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं :-

| क्रम सं. | नाम                        | वर्तमान ग्रेड           | पदोन्नत ग्रेड           |
|----------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|          | सर्वश्री                   |                         |                         |
| 1.       | मल्लमपल्लिल<br>शिवरामकृष्ण | वैज्ञानिक<br>अधिकारी/सी | वैज्ञानिक<br>अधिकारी/डी |
| 2.       | सर्वजीत कुमार              | वैज्ञानिक<br>अधिकारी/सी | वैज्ञानिक<br>अधिकारी/डी |

उपरोक्त अधिकारियों ने दिनांक 01 अगस्त, 2005 के पूर्वाह से अपने निचले पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

आर. के. सैनी  
मुख्य प्रशासन अधिकारी

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 सितम्बर 2006

सं. ए-39012/4/2006-स्था.-I--राष्ट्रपति जी, महानिदेशक नागर विमानन कार्यालय के श्री बाबू लाल, उपनिदेशक उड़नयोग्यता के सरकारी सेवा से स्वेच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस को केन्द्रीय सिविल सेवा (पैशन) नियमावली, 1972 के नियम 48ए के अन्तर्गत दिनांक 01.09.2006 (पूर्वाह) से स्वीकार करते हैं और उन्हें दिनांक 01.09.2006 (पूर्वाह) से कार्यमुक्त किया जाता है।

चानन राम  
उप निदेशक प्रशासन

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग  
मुख्य वास्तुक (न. दि. अं.)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 2006

सं. 27/280/1988-मु.वा.(न.दि.अं.)/241-45--श्री एम. टी. मेशराम, मुख्य वास्तुक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.08.2006 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त किया जाता है।

विजय पी. राव  
मु.वा.(न.दि.अं.) के सम्पर्क अधिकारी

आयकर अपीलीय अधिकरण

मुम्बई-400020, दिनांक 10 जुलाई 2006

शुद्धि-पत्र

सं. एफ.-301-एडी(एटी)/2006--इस कार्यालय के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02.06.2006 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :-

उद्धरण के दूसरी पंक्ति तथा पृष्ठंकन क्रमांक 5 में

Indian Ordinance Factories

के स्थान पर

भारतीय आयुध कारखाना (Indian Ordnance Factories) पढ़ा जाए।

आर. के. बाऊल  
उप पंजीकार

कम्पनी कार्य मंत्रालय  
(कम्पनी कार्य विभाग)  
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स विनायक हैण्डिक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 24 अगस्त 2006

सं. आर.ओ.सी./560/20456/1221--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के उपरान्त मैसर्स विनायक हैण्डिक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अकेता फीनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 29 अगस्त 2006

सं. आर.ओ.सी./18909/एस.टी.ए./560/2006/1105--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स अकेता फीनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ज्युपीटर इन्टरमीडिएट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 31 अगस्त 2006

सं. 34112/जे.टी.ए./560/2005/1570--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स ज्युपीटर इन्टरमीडिएट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

प्रकाश सापले  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स केम्प एवीएशन एण्ड एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 1 सितम्बर 2006

सं. 37011/जे.टी.ए./560/2006/1573--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स केम्प एवीएशन एण्ड एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेगासीस इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 1 सितम्बर 2006

सं. 04-42180/जे.टी.ए./560/2006/1576--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स मेगासीस इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स केम्प एवीएशन एण्ड एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 1 सितम्बर 2006

सं. 37011/जे.टी.ए./560/2006/1579--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स केम्प एवीएशन एण्ड एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्ल्यूस्ट्रीम टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 1 सितम्बर 2006

सं. 46899/जे.टी.ए./560/2006/1582--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना



दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स ब्ल्यूस्ट्रीम टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कमल हरजानी  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पारेख एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 1 सितम्बर 2006

सं. आर.ओ.सी./04-247743/एस.टी.ए./560/2005/1585---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स पारेख एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेगा मेटाकेम लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 1 सितम्बर 2006

सं. आर.ओ.सी./04-24885/एस.टी.ए./560/2005/1585---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स मेगा मेटाकेम लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आलीसान फूड्स एण्ड फार्मिनाल्स लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 1 सितम्बर 2006

सं. आर.ओ.सी./24886/एस.टी.ए./560/2005/1586---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स आलीसान फूड्स एण्ड फार्मिनाल्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित

नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोकुल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 1 सितम्बर 2006

सं. आर.ओ.सी./04-24771/एस.टी.ए./560/2005/1588---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स गोकुल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डीलवन बायोटेक लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 1 सितम्बर 2006

सं. आर.ओ.सी./04-24772/एस.टी.ए./560/2005/1591---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स डीलवन बायोटेक लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सीतल स्पेशियलिटीज लिमिटेड के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 1 सितम्बर 2006

सं. आर.ओ.सी./04-24882/एस.टी.ए./560/2005/1591---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स सीतल स्पेशियलिटीज लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मल्टी मीडिया सॉफ्टवेयर लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧ સિતમ્બર ૨૦૦૬

सं. आर.ओ.सी./04-24762/एस.टी.ए./560/2005/1594--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स मल्टी मीडिया सोफ्टवेयर लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इली मील फाईनान्स लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 1 સિતમ્બર 2006

सं. आर.ओ.सी./04-24801/एस.टी.ए./560/2005/1597--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स शील मील फाईनान्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

વી. કે. ખૂબચન્દાની  
કમ્પની રજિસ્ટ્રાર  
ગુજરાત, દાદરા અને નગર હવેલી

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रोनक इन्फिन एण्ड ट्रेडर्स लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧ સિતમ્બર ૨૦૦૬

सं. आर.ओ.सी./04-24811/एस.टी.ए./560/2005/1600--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स रोनाक इनफिन एण्ड ट्रेडर्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कास्ट वेस्ट फिनस्टोक लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 1 સિતમ્બર 2006

सं. आर.ओ.सी./24814/एस.टी.ए./560/2005/1603--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स कास्ट वेस्ट फिनस्टोक लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए

गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी  
कम्पनी रजिस्ट्रार

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पार्थ सिक्थुरिटीज लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧ સિતમ્બર ૨૦૦૬

सं. आर.ओ.सी./04-24820/एस.टी.ए./560/2005/1606--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में ऐतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स पार्थ सिक्युरिटीज लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वरेली फीलमैनरुक इक्युपमेन्ट्स लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧ સિતમ્બર ૨૦૦૬

सं. आर.ओ.सी./248222/एस.टी.ए./560/2005/1609--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स वरेली फीलमैनरुक इन्धुपमेन्ड्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भावना सिक्कुरिटीज लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧ સિતમ્બર ૨૦૦૬

सं. आर.ओ.सी./24837/एस.टी.ए./560/2005/1612--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स भावना सिक्युरिटीज लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विषटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेगा मेटाकेम लिमिटेड  
के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧ સિતમ્બર ૨૦૦૬

सं. आर.ओ.सो./04-24885/एस.टी.ए./560/2005/1615--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स मेगा मेटाकेम लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खबचन्दानी

कम्पनी रजिस्ट्रार

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एडवान्स सेर्विंग्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट इण्डिया लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 1 સિતમ્બર 2006

सं. आर.ओ.सी./04-24835/एस.टी.ए./560/2005/1618--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स एडवान्स सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट इण्डिया लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खबचन्दानी

कम्पनी रजिस्ट्रार

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पी. एन. फिनस्टोक लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 1 સિતમ્બર 2006

सं. आर.ओ.सी./24836/एस.टी.ए./560/2005/1621--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स पी. एन. फिनस्टेक लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खबचन्दानी

**कम्पनी रजिस्ट्रार**

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पी. एन. ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 1 સિતમ્બર 2006

सं. आर.ओ.सी./04-24837/एस.टी.ए./560/2005/1624--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा

यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स पी. एन. ट्रेडिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी

कम्पनी रजिस्ट्रार

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मारू टेली-फिल्म लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-380013, દિનાંક 1 સિતમ્બર 2006

सं. आर.ओ.सी./04-24868/एस.टी.ए./560/2005/1627--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स मारू टेली-फिल्म लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खड्गचन्दानी

कम्पनी रजिस्ट्रार

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अमीपदमा हाऊसिंग एण्ड  
फाईनान्स लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧ સિતમ્બર ૨૦૦૬

सं. आर.ओ.सी./04-24890/एस.टी.ए./560/2005/1639--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स अमीपदमा हाऊसिंग एण्ड फाईनान्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खबचन्दानी

कम्पनी रजिस्ट्रार

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हिलमेन्स एग्रो (इण्डिया) लिमिटेड के सम्बन्ध में।

અહમદાબાદ-૩૮૦૦૧૩, દિનાંક ૧ સિતમ્બર ૨૦૦૬

सं. आर.ओ.सी./04-24893/एस.टी.ए./560/2005--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स हिलमेन्स एग्रो (इण्डिया) लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण

दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जेम्जुकत गैसेस लिमिटेड  
के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 1 सितम्बर 2006

सं. आर.ओ.सी./24794/एस.टी.ए./560/2005/1645--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स जेम्जुकत गैसेस लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्यूरी स्पेक्ट्रस लेजर लिमिटेड  
के सम्बन्ध में।

अहमदाबाद-380013, दिनांक 1 सितम्बर 2006

सं. आर.ओ.सी./04-24896/एस.टी.ए./560/2005/1648--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के बाद मैसर्स क्यूरी स्पेक्ट्रस लेजर लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों  
के विषय में।

कटक-753001, दिनांक 29 अगस्त 2006

सं. आर.ओ.सी./560(3)/1208--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह सभी कम्पनियाँ विघटित कर दी जाएंगी। :-

| क्रम सं. | कम्पनी नं. | कम्पनी का नाम                               |
|----------|------------|---|
| 1        | 2          | 3   |
| 1.       | 15-0122    | मैसर्स रम्बा इन्डस्ट्रीज लिमिटेड            |
| 2.       | 15-0151    | मैसर्स घोष नदी एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड |

| 1   | 2       | 3  |
|-----|---------|--|
| 3.  | 15-0231 | मैसर्स कर्लिगा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड          |
| 4.  | 15-0294 | मैसर्स झरना मिल्स प्राईवेट लिमिटेड                           |
| 5.  | 15-0316 | मैसर्स उत्कल साईकल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड     |
| 6.  | 15-0324 | मैसर्स कर्लिगा एयर लाइन्स प्राईवेट लिमिटेड                   |
| 7.  | 15-0328 | मैसर्स कटक आयरन एण्ड स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड                |
| 8.  | 15-0337 | मैसर्स कर्लिगा फाउण्डरी प्राईवेट लिमिटेड                     |
| 9.  | 15-0369 | मैसर्स रूपा रागा प्राईवेट लिमिटेड                            |
| 10. | 15-0374 | मैसर्स उत्कल वानिज्य प्राईवेट लिमिटेड                        |
| 11. | 15-0407 | मैसर्स शिबको इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड                    |
| 12. | 15-0413 | मैसर्स भूलंकान इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड                  |
| 13. | 15-0441 | मैसर्स खूर्दा मेटल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड                       |
| 14. | 15-0445 | मैसर्स उड़ीसा डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड                       |
| 15. | 15-0448 | मैसर्स एरोभवायस एण्ड इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड           |
| 16. | 15-0481 | मैसर्स टियूक हॉस्पिटल्स प्राईवेट लिमिटेड                     |
| 17. | 15-0498 | मैसर्स एशियन बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड                       |
| 18. | 15-0518 | मैसर्स श्रीनिवास इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइसेस प्राईवेट लिमिटेड |

बी. महान्ती  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सेवन हिल स्पिनर्स प्राईवेट  
लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 16 अप्रैल 2002

सं. एस-560(5)/सी-181-1037--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स सेवन हिल स्पिनर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वरज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु



इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वडावल्ली केबल टीवी नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 16 अप्रैल 2002

सं. एस-560(5)/सी-181-8337--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स वडावल्लु की बल टीवी नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री रंगानाथर.कॉम प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 16 अप्रैल 2002

सं. एस-560(5)/सी-181-9293--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स श्री रंगानाथर.कॉम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वेन्किटम श्री रंगानाथर  
फाईनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतर-641005, दिनांक 16 अप्रैल 2002

सं. एस-560(5)/सी-181-8138--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स वेन्किटम श्री रंगानाथर फार्मान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला

इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वरज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्यूचिप सोफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 16 अप्रैल 2002

सं. एस-560(5)/सी-181-3491--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स ब्ल्यूचिप सोफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वलरमाती स्टील कार्स्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 16 अप्रैल 2002

सं. एस-560(5)/सी-181-1650---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स बलरमाती सटील कार्बोस्टिग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बारानी गारमेन्ट्स एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 16 अप्रैल 2002

सं. एस-560(5)/सी-181-4201--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स बारानी गारमेन्ट्स एक्सपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

सं. एस-560(5)/सी-181-6467--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स बीएलबार सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी



इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स केआरजी इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फाईनान्शियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतर-641005, दिनांक 16 अप्रैल 2002

सं. एस-560(5)/सी-181-6552--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स केआरजी इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाईनान्शियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जी. के. बी. स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतर-641005, दिनांक 16 अप्रैल 2002

सं. एस-560(5)/सी-181-8174--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स जी. के. बी. सटील्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोयम्बतूर श्री कृष्णा इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 16 अप्रैल 2002

सं. एस-560(5)/सी-181-3188--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स कोयम्बतूर श्री कृष्णा इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

सं. एस-560(5)/सी-181-2550--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स श्रीवत्स ट्रेडिंग कम्पनी (कोयम्बतूर) प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और



वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

सं. एस-560(5)/सी-181-2277--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स को.एन. कॉटन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

सं एस-560(5)/सी-181-6499--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स प्राइम प्रीवोर्ड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी

इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री नानमुही टेक्सटाईल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 16 अप्रैल 2002

सं. एस-560(5)/सी-181-6865--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स श्री नानमुही टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विजयप्रकाश फाईनान्स एण्ड  
सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 16 अप्रैल 2002

सं. एस-560(5)/सी-181-7232--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स विजयप्रकाश फार्मान्स एण्ड सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वीजे टेक्नोलिक्स हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 16 अप्रैल 2002

सं. एस-560(5)/सी-181-7306--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स बीजे टेक्नोनिक्स हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी

इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गेटविन वीविंग एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 16 अप्रैल 2002

सं. एस-560(5)/सी-181-7559--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स गेटविन वीविंग एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पलानी वैश्य बेनिफिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 12 जून 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-5370--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स पलानी वैश्य बेनिफिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सास्तिवेल फाईनान्सिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 16 अप्रैल 2002

सं. एस-560(5)/सी-181-5148--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स सास्तिवेल फाईनान्सिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एनसी इसेन्शियल ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 29 अगस्त 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-875--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स एनसी इसेन्शियल ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अरुलमिगू करुमरियम्न मूवीज प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 12 जून 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-1733--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स अरुलमिगू करुमरियम्न मूवीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चांदनी एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 29 अगस्त 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-1959--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स चांदनी एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह कम्पनी

सं. एस-560(5)/सी-181-2419--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स मद्रास पायनियर प्लास्टोकेम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह



वी. सेल्वरज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आरटीएएम फाईनान्शियल एण्ड इन्फोरमेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-6630--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स आरटीएएम फार्मानियायल एण्ड इन्फोरमेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एलएमडब्ल्यू मैनेजमेन्ट सर्विसेस लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-3516--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स एलएमडब्ल्यू मैनेजमेन्ट सर्विसेस लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ब्रान्ड क्राफ्ट एडवर्टाईजिंग सर्विसेस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-9997--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स ब्रान्ड क्राफ्ट एडवर्टाइजिंग सर्विसेस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता

सं. एस-560(5)/सी-181-7276--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स जगेनबर्ग-सेरवाल पेपरटेक्निक प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह

सं. एस-560(5)/सी-181-5213--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स एस. एम. एस. हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

सं. एस-560(5)/सी-181-4680--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स धरन स्पिनर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह

कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सन्जीवी सुपर मार्केट प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-4488--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स सन्जीवी सुपर मार्केट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वेन्शन फाईनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-6147--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स वेन्थन फार्मानस एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इमैयम फाईनान्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-3541--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स इमैयम फार्मान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह

है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स साउदर्न स्टोन प्रोडक्ट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-4171--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स साउदर्न स्टोन प्रोडक्ट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वरज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अनिचा स्टॉक्स एण्ड शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-6430--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स अनिचा स्ट्यूक्स एण्ड शेयर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्चराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एलिगेन्ट नितर्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-4406--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स एलिगेन्ट निटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह

कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कामधेनु ड्रिक्स एण्ड डिस्ट्रील्लरीज लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-717--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स कामधेनु इंडिक्स एण्ड डिस्ट्रील्लरीज लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सनको बायोटेक लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-6220--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स सनको बायोटेक लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ज्ञानसरोवर फाईनान्स लिमिटेड  
के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-6490--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स ज्ञानसरोवर फाईनान्स लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह



जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पेसिफिक पार्टनर्स फ्रेन्चाइज डेवलपमेन्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयंबतूर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-7778---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार मैं एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स पेसिफिक पार्टनर्स फ्रेन्चाइज डेवलपमेन्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

**कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गिरिसन एण्ड सनसोन्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।**

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-1498--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एलटु द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स गिरिसन एम्प्लायन्सेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जी ई सी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-3963--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स डी ई सी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस

सं. एस-560(5)/सी-181-3312--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स यूनाइटेड केब्स (प्राईवेट) लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

सं. एस-560(5)/सी-151-5549--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स ए. आर. आर. टेक्सटाईल्स लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

वी. सेल्वरज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

वी. सेल्वरराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

सं. एस-560(5)/सी-181-9053--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मिसर्स बैटल साफ्टनेट टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह

कम्पनी इस नीति के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के लिए से धन  
की जाती है।

श्री. सेल्धराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

जमती इस नोटिस के आदेश के पत्राचार में प्रकाशित होने के दिन से रंग की जाती है।

बी. सेल्फराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मेसर्स काजीरवरी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(5)/लौ-181-7771--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एकाग्रता का नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स जयजीश्वरी चिट्स प्रॉपर्टी लिमिटेड का आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से ग़ायब की जाती है।

श्री. सेल्वरज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
चम्बलनाड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और वेस्टम कोयम्बतूर ज्जोपकार  
फार्मान्स एण्ड चिट फण्डस लिमिटेड के मामले में।

कोयंबटूर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(5)/बी-181-40—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स कोयंबटूर गवर्नेमन्ट फार्मास्युटिकल् एण्ड चिट फण्ड्स लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

**वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु**

कम्पनी अधिनियम, 1956 और प्रैसर्स रीगुल पेपर एण्ड बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-8444-कक्षाती अधिवेशन, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार मैं एतद्वारा यह केसिस दिक् जाता है कि मैसर्स रीगल फेर एण्ड कोर्स प्रॉपर्टि लिमिटेड का यह आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जा रहा है और यह कम्पनी इस नोटिस के भरा के सचिव में प्रकाशित होने के लिए से तैयारी की जाती है।

वी. सेल्वरज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

**कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओम मंगलनाथजी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।**

कोष्ठम्बर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(53)जी.डी. 5330-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (4) के अनुसार यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स कोयलांगलकम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनी के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वरज  
कम्पनियों के रेजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और प्रैसर्स गणपती सिविल लायर्स चैम्बर  
फण्डस प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयंबटूर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-6162--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मेसर्स गनपथी सिवविलास चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह

सामग्री की कीमतें, 1986 और मैकडॉनल्ड्स इण्डियन रबर वर्क्स लिमिटेड के मामले में।

कोयंबटूर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-191--कम्पनी अधिनियम, 1925 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार एकाधार को नष्ट दिया जाता है कि मैसर्स साठय इण्डियन रबर वर्क्स लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह

कम्पनी इस नोटिस के भारत के राज्यपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वेलेन्सी सोफ्टेक इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-9244--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स वेलेन्सी सोफ्टेक इन्फोसिस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गंगोत्री स्पिनर्स लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-5747--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स गंगोत्री स्पिनर्स लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आरएसटी फाईनान्स एण्ड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-4606--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स आरएससी फार्मान्स एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

सं. एस-560(5)/सी-181-4203--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स कोवै क्लोदिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह

कम्पनी इस नोटिस के भारत के राष्ट्रपति में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

**कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हैतिमा फिटिंग्स लिमिटेड  
के मामले में।**

कोयंबटूर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-7553--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एलएलएल यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स हैतिमा फिटिस लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1936 और मैसांस इंस्टीटूटेनरी इफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के मामले में।

कोयंबटूर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-2761--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स इरोड टेनिस इण्डस्ट्रियल ट्रीटमेन्ट कम्पनी लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनी के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

श्री. सेल्वरत्न  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दिव्यदर्शन चित्र फण्ड प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 9 दिसम्बर 2003

सं. एस-560(5)/सी-181-5507--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स दिव्यदर्शन चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह





यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गोबाल्ड फाईनान्स लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 8 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-6295--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स गोबाल्ड फाईनान्स लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कारटेल केबल कम्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 8 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-7153--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स कारेटेल केबल कम्प्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कल्याणी ट्रांसपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 8 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-290--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स कल्याणी ट्रान्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह



कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वेद्री इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 8 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-7695--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स वेद्री इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रसगोन्तालुगोवर्धन इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाईनान्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 8 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-5442--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स रसगोन्तालुगोवर्धन इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोहेसियन सोफ्टवेयर एण्ड सर्विसेस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 8 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-9685--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स कोहेसियन सोफ्टवेयर एण्ड सर्विसेस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता

है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जी. एन. एम. शेयर्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 8 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-18-5707--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स जी. एन. एम. शेयर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अनामल्लाईज फाउण्डरी प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-1402--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स अनामल्लाईज फाउण्डरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ओरिगो टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 8 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-8142--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स ओरिगो टेक्नोलोजीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स साउथ इण्डिया शुगर्स लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-10322--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स साउथ इण्डिया शुगर्स लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अवनाशी पॉवर लूमस प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 8 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-1944--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स अवनाशी पॉवर लूमस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विष्णु प्रिया बेनिफिट फण्ड लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-3688--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स विष्णु प्रिया बेनिफिट फण्ड लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह

सं. एस-560(5)/सी-181-1588--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स लक्ष्मी ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह

सं. एस-560(5)/सी-181-8156--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स साधूथी फाईनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और

सं. एस-560(5)/सी-181-1093--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स कोयम्बतूर कम्प्यूटर सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह





कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आरो टेक्सटाईल मशीन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-3070--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स आरो टेक्सटाईल मशीन वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गुणश्री एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-7824--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स गुणश्री एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टविलाइट ट्रेवल रिलेटेड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-8002--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स टविलाइट ट्रेवल रिलेटेड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बिजी बॉय कन्सल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-7780--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स बिजी बॉय कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सिवमाला चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-5778--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स सिवमाला चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुगवनेश्वरा टेक्स्टाईल्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-1873--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स सुगवनेश्वर टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह

कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वालापाडी श्रीनिवासा फ़ैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-1866--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स वालापाडी श्रीनिवासा फ़ैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एच. आर. बेनिफिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-6906--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स एच. आर. बेनिफिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजराजन टेक्सटाईल्स मशनरी मैनुफैक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-1803--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स राजराजन टेक्सटाईल्स मशनरी मैनुफैक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कावेरी इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-7480--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स कावेरी इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गुर्गई सलेम डाईंग कामन एफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-7009--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स गुर्गई सलेम डाईंग कामन एफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट कम्पनी लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अरमदा रीयल इस्टेट्स एण्ड कन्सट्रक्शन एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-6463--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स अरमदा रीयल इस्टेट्स एण्ड कन्सट्रक्शन एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला

नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सालजर रिसोर्ट्स लिमिटेड  
के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-3789--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स सालजर रिसोर्ट्स लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शाविन टेक्सटाईल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-5728--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स शाविन टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टेक्ससिटी बेनिफिट फण्ड लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-6225--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स टेक्ससिटी बेनिफिट फण्ड लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस

सं. एस-560(5)/सी-181-9892--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स उल्लासम वाटर पार्क इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह

सं. एस-560(5)/सी-181-3546--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स श्री महाराजा वनस्पति प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्टर से निकाला जाता है और यह

कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अतचरा इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-7554--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स अतचरा इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स के एन आर चिट प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 28 जून 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-4852--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स के एन आर चिट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चन्द्रा हायर परचेज एण्ड जनरल फाईनान्स लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 28 जून 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-1259--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स चन्द्रा हायर परचेज एण्ड जनरल फाईनान्स लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्री प्रेमराज निटटेक्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 28 जून 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-4806--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स श्री प्रेमराज निटटेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मीताला स्पिनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 28 जून 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-1894--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स मीताला स्पिनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुमनट्रेक कारपोरेट इन्वेस्टमेन्ट एण्ड पोर्टफोलियो सर्विसेस लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 28 जून 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-5673--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स सुमनट्रेक कारपोरेट इन्वेस्टमेन्ट एण्ड पोर्टफोलियो सर्विसेस लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से









नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अरुल भारती ट्रेडिंग लिक्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 28 जून 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-7219--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स अरुल भारती ट्रेडिंग लिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स चैनल इन्वेस्टमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 28 जून 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-2623--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स चैनल इन्वेस्टमेंट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फोरवेज इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 28 जून 2004

सं. एस-560(5)/सी-181-6670--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया

जाता है कि मैसर्स फोरवेज इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डाईटेक्स केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 29 मार्च 2006

सं. एस-560(5)/सी-181-6157--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स डाईटेक्स केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भतरकाली अम्मन फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बतूर-641005, दिनांक 29 मार्च 2006

सं. एस-560(5)/सी-181-3128--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि मैसर्स भतरकाली अम्मन फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन कम्पनियों के रजिस्ट्रार से निकाला जाता है और यह कम्पनी इस नोटिस के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से भंग की जाती है।

वी. सेल्वराज  
कम्पनियों के रजिस्ट्रार  
तमिलनाडू

## SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 1st September 2006

No. F. 20/2006-SCA (I).—Shri Subhash Chand Arora, Offg. Additional Registrar has retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of August 31, 2006 on his attaining the age of superannuation.

S. C. CHATTERJEE  
Additional Registrar (Admn.)

New Delhi, the 1st September 2006

No. 22/Cal./2006/SCA/Genl.—The Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to direct under Sub-rule (3) of Rule 4, Order II of Supreme Court Rules, 1966 (as amended) that the following days be observed as Court Holidays during the year 2007 :

## List of Supreme Court Holidays 2007

| Name of Holidays                       | Month & Date                | Days of the Week   |
|--|-----------------------------|--------------------|
| 1                                      | 2                           | 3                  |
| New Year Holiday & Id-ul-Zuha (Bakrid) | January, 1 & January, 2     | Monday & Tuesday   |
| Republic Day                           | January, 26                 | Friday             |
| Muharram Holidays                      | January, 29 & January, 30   | Monday & Tuesday   |
| Maha Shivaratri                        | February, 16                | Friday             |
| Holi Holidays                          | March, 5 & March, 6         | Monday & Tuesday   |
| Ram Navami                             | March, 27                   | Tuesday            |
| Mahavir Jayanti                        | March, 31                   | Saturday           |
| Good Friday                            | April, 6                    | Friday             |
| Independence Day                       | August, 15                  | Wednesday          |
| Raksha Bandhan                         | August, 28                  | Tuesday            |
| Janmashtami Holidays                   | September, 3 & September, 4 | Monday & Tuesday   |
| Mahatma Gandhi's Birthday              | October, 2                  | Tuesday            |
| Dussehra Holidays                      | October, 15 to October, 20  | Monday to Saturday |
| Diwali Holidays                        | November, 5 to November, 10 | Monday to Saturday |

| 1                               | 2                               | 3                      |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Guru Nanak's Birthday           | November, 24                    | Saturday               |
| Id-uz-Zuha (Bakrid)             | December, 21                    | Friday                 |
| Christmas & New Year's Holidays | December, 17 to January, 1 2008 | Monday to Tuesday 2008 |

NOTE : The Summer Vacation of the Court will commence from Monday the 21st May, 2007 and the Court will resume its sitting after the vacation on Monday the 9th July, 2007.

By Order

T. N. SANSI  
Registrar (Admn. Genl.)

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110 069, the 6th July 2006

No. A-32014/2/2006-Admn. I.—In pursuance of Department of Personnel & Training O. M. No. 5/8/2006-CS. II, dated 31st May, 2006, the President is pleased to appoint the following Grade 'C' Stenographers (Personal Assistant) of CSSS cadre of UPSC as Stenos Grade 'A' & 'B' (Merged) (designated as P. S.) on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the office of UPSC for a period as shown against their names :—

| Sl. No. | Name of the Officer    | Period                        |
|---------|------------------------|-------------------------------|
|         | S/Shri                 |                               |
| 1.      | Ms. P. K. Chadha       | 01.06.2006 to 31.12.2006      |
| 2.      | Devender Kumar         | 01.06.2006 to 31.12.2006      |
| 3.      | Ms. Mukta Makar        | 01.06.2006 to 31.12.2006      |
| 4.      | Ms. Kusum Budhiraja    | 01.06.2006 to 31.12.2006      |
| 5.      | C. K. Parameswaran     | 01.06.2006 to 31.12.2006      |
| 6.      | Virender Kumar (SC)    | 01.06.2006 to 31.12.2006      |
| 7.      | S. L. Bhuttan          | 30.06.2006 to 31.12.2006      |
| 8.      | Ms. Renu Kohli         | 30.06.2006 to 31.12.2006      |
| 9.      | Gopal Rajwaney (SC)    | 30.06.2006 to 31.12.2006      |
| 10.     | Ms. Santosh Anand (SC) | 30.06.2006 to 31.12.2006      |
| 11.     | I. S. Kataria (SC)     | 30.06.2006 (AN) to 31.12.2006 |

2. The ad hoc promotion/appointment is subject to following conditions :—

- (i) The ad hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade

indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) (PS) of CSSS.

- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 24th July 2006

No. A-19017/01/2006-Admn. I.—In pursuance of Department of Personnel & Training O. M. No. 5/8/2006-CS. II dated 31st May 2006, the President is pleased to appoint Shri Azad Singh Yadav, a regular Stenographer Grade 'C' of CSSS cadre of Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry, as Stenographer Grade 'A' & 'B' (Merged) (Designated as PS) on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in CSSS cadre of UPSC w.e.f. the forenoon of 21st July 2006 to 31.12.2006 or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion/appointment is subject to following conditions :—

- (i) The ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) (PS) of CSSS.
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 28th July 2006

No. A-12011/2/298-Admn. I.—In pursuance of DOP & Trg. OM No. 5/7/2006-CS. II dated 30th June 2006, the President is pleased to appoint the following Steno Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS to the Private Secretary Grade (Principal Private Secretary) of CSSS in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the cadre of UPSC on ad hoc basis w.e.f. 01.07.2006 to 31.12.2006 or till Select List officers become available or until further orders, whichever is earlier :

- (i) Ms. S. M. Oberoi  
(ii) Shri H. C. Sehgal

2. The promotion of the above-mentioned officers as PPS is purely on ad hoc basis and shall not confer any right on them to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Private Secretary Grade of CSSS.

3. This issues in continuation of this office notification of even number dated 5th Jan, 2006.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 3rd August 2006

No. A-19017/02/2006-Admn. I.—In pursuance of Department of Personnel & Training O. M. No. 5/8/2006-CS. II dated 31st May 2006, the President is pleased to appoint Shri Gurdev Singh, a regular Stenographer Grade 'C' of CSSS cadre of Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry, as Stenographer Grade 'A' & 'B' (Merged) (Designated as PS) on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in CSSS cadre of UPSC w.e.f. the forenoon of 31st July 2006 to 31.12.2006 or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion/appointment is subject to following conditions :—

- (i) The ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) (PS) of CSSS.
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

No. A-19017/03/2006-Admn. I.—In pursuance of Department of Personnel & Training O. M. No. 5/8/2006-CS. II dated 31st May 2006, the President is pleased to appoint Shri Gursharan Singh, a regular Stenographer Grade 'C' of CSSS cadre of Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry, as Stenographer Grade 'A' & 'B' (Merged) (Designated as PS) on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in CSSS cadre of UPSC w.e.f. the forenoon of 1st August 2006 to 31.12.2006 or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion/appointment is subject to following conditions :—

- (i) The ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) (PS) of CSSS.
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 4th August 2006

No. A-19017/01/2001-Admn. I.—Consequent upon his repatriation from deputation as Court Master, National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi, Shri Rohtash Singh a regular Stenographer Grade 'A' & 'B' (Merged) (Designated as PS) of CSSS cadre of UPSC has reported for duty in the office of UPSC w.e.f. the forenoon of 2nd August 2006.

2. On his repatriation from deputation, Shri Rohtash Singh, will draw pay @ Rs. 8,825/- in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/-.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 8th August 2006

No. A-19017/01/2001-Admn. I.—Consequent upon his selection for appointment to the post of Private Secretary (pay scale Rs. 10,000-325-15,200/-) in the High Court of Delhi, New Delhi on 'direct recruitment basis', the Competent Authority has accepted the 'technical resignation' tendered by Shri Rohtash Singh a regular Stenographer Grade 'A' & 'B' (Merged) (Designated as PS) of CSSS cadre of UPSC. Accordingly, Shri Rohtash Singh is relieved of his duties in the office of UPSC w.e.f. the afternoon of 8th August 2006 to enable him to join his new Assignment in the High Court of Delhi, New Delhi.

2. The service rendered by Shri Rohtash Singh will count towards pension under Rule 26 (2) of CCS (Pension) Rules 1972.

3. Shri Rohtash Singh being a permanent Government servant would retain his lien as per rules.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

The 24th August 2006

No. A-32013/1/2006-Admn. I.—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 5/8/2006-CSI (Desk) dated 10th August, 2006, the President is pleased to appoint the following Section Officers of CSS to the Grade I (Under Secretary) of CSS on ad hoc basis in the Office of the UPSC in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. the dates mentioned against each until further orders :—

| Sl. No. | CSL No. | Name & Date of Birth                            | Date of appointment   | Cadre where worked as Section Officer |
|---------|---------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| 1.      | 5381    | (S/Shri)<br>Suresh Chand Sharma<br>(22.11.1949) | 10.08.2006<br>(F. N.) | UPSC                                  |
| 2.      | 5388    | Smt. Pushpa Bisht<br>(12.08.60)                 | 17.08.2006<br>(F. N.) | D/o Commerce                          |
| 3.      | 5562    | Ram Singh<br>(25.03.1949)                       | 10.08.2006<br>(F.N.)  | UPSC                                  |

2. The appointment of the above officer on ad hoc basis is subject to the following conditions :—

- The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or, for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I.
- The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefore.

DINESH KUMAR  
Under Secy. (Admn.)

### CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 4th September 2006

No. 2/4/06-Admn./34340.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Vineet Anand, Personal Assistant in the Commission, as Private Secretary, in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, on ad hoc basis, with effect from the forenoon of 31.08.2006 for a period of three months or till further order, whichever is earlier.

2. Appointment of Shri Vineet Anand to the post of Private Secretary is purely temporary and on ad hoc basis under Rule 9 of the CVC (Staff) Rules, 1964 as amended from time to time and will not bestow upon him any claim for regular appointment.

MANGE LAL  
Dy. Secy.  
for Central Vigilance Commissioner

No. 2/21/06-Admn./34343.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri P. M. Pillai, Under Secretary in the Commission as Deputy Secretary, in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-, on ad hoc basis with effect from the forenoon of 31.08.2006 for a period of three months or till further order, whichever is earlier.

MANGE LAL  
Dy. Secy.  
for Central Vigilance Commissioner

No. 2/2/06-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri M. A. Khan, Section Officer in the Commission as Under Secretary, in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/-, on ad hoc basis with effect from the forenoon of 10.08.2006 for a period of three months or till further order, whichever is earlier.

MANGE LAL  
Dy. Secy.  
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110 003, the 25th August 2006

No. O. II. 4883/06-PF-Pers.-I.—Consequent on acceptance of his notice dated 28.03.2006 for voluntary retirement from Government service by the Ministry of Home Affairs, Shri D. C. Joshi, Dy. Comdt. (IRLA-4883) of 98/124 Bn, has been relieved from his post on 01.08.2006 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the force with effect from 01.08.2006 (FN).

RANJIT SINGH  
Addl. DIGP (Pers.-I)

No. O-II-6704/2006-Pers.-I.—Consequent on acceptance of his notice for resignation from Government service, Shri Gurikaran Singh Bains, Asstt. Comdt. (IRLA No. : 6704) trainee officer, 37th batch DAGOs of CRPF Academy Kadarpur, was relieved from his post on 18.07.2006 (AN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the force with effect from 18.07.2006 (AN).

RANJIT SINGH  
Addl. DIGP (Pers.-I)

No. O-II-5283/2006-Pers.-I.—Consequent on acceptance of his notice for resignation from Government service, Shri Shailesh Sharma, Asstt. Comdt. (IRLA No. : 5283) of GC CRPF Bhopal relinquished the charge of his post on the afternoon of 31st July, 2006. Accordingly, he has been struck off from the strength of this department with effect from the same date i.e. 31.7.2006 (AN).

RANJIT SINGH  
Addl. DIGP (Pers.-I)

No. O. II. 3692/06-CRC (MOs).—On his superannuation from service Dr. S. K. Sharma, DIGP (Medical) (IRLA-6737) CRPF, made over charge of his post from the afternoon of 31.7.2006. Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force from 31.7.2006 (AN).

RANJIT SINGH  
Addl. DIG (Pers.-I)

The 28th August 2006

No. O. II. 3588/2006-Pers.-I.—The Govt. of India has appointed Shri S. K. Jain, IPS (AM : 84) Deputy Director in NCRB as Inspector General of Police in CRPF in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- on deputation basis for the tenure upto 30.1.2009 from the date he assumes the charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

2. The officer accordingly took over the charge of the post of Inspector General of Police, CRPF in the forenoon of 05.06.2006.

RANJIT SINGH  
Addl. DIGP (Pers.-I)DIRECTOR GENERAL  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110 003, the 29th August 2006

No. E-16016(5)/04/2003/Pers.-I/52.—On repatriation to CGHS, Hyderabad, Dr. P. V. Rao, CMO (SG) has relinquished the charge of Chief Medical Officer (SG) of CISF NISA Hyderabad in the afternoon of 17th April 2006.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

No. E-16016(5)/04/96/Pers.-I/53.—On repatriation to CGHS, Bhubaneswar, Dr. C. R. Mohanty, CMO (SG) has relinquished the charge of Chief Medical Officer (SG) of CISF KRTC Mundali in the afternoon of 30th June 2006.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

No. E-16016(5)/04/2003/Pers.-I/54.—On repatriation to CGHS, Chennai, Dr. S. Umashankar, SMO has relinquished the charge of Senior Medical Officer of CISF RTC Arakkonam in the afternoon of 30th April 2006.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

No. E-16015(2)/2/2003/Pers.-I/55.—The President is pleased to appoint Shri S. S. Lall, Asstt. Commandant to the rank of Deputy Commandant in CISF on promotion on regular basis in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-. He is posted at CISF 1st Res. Bn. Barwaha, where he assumed the charge of Deputy Commandant in the forenoon of 3rd May 2006.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

The 30th August 2006

No. E-16015(8)/2/2003/Pers.-I/57.—The President is pleased to appoint the following Inspectors (Min/Steno) on regular promotion to the rank of Assistant Commandant/JAO in the

pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in CISF with effect from the date noted against each :—

| Sl. No. | Name of Officer     | Office/Unit where Assumed the charge | Date of Assumption of charge as Asstt. Commandant/JAO on Regular basis |
|---------|---------------------|--------------------------------------|--|
| 1.      | S/Shri R. K. Pathak | AC/Pers, FHQ                         | 21.08.2006   |
| 2.      | Ishaque Sharif      | AC/L&R, FHQ                          | 08.08.2006   |
| 3.      | R. Manikantan       | NS HQrs, Delhi                       | 18.08.2006   |
| 4.      | Puran Singh         | GBS, Delhi                           | 09.08.2006   |
| 5.      | Kharag Singh        | WS, Mumbai                           | 18.08.2006   |
| 6.      | G. K. Kuchhal       | 6th Res. Bn., Arakkonam              | 17.08.2006   |
| 7.      | H. N. Ram           | 3rd Res. Bn., Bhilai                 | 18.08.2006   |
| 8.      | H. N. Sethi         | DAE, HQrs, Hyderabad                 | 18.08.2006   |
| 9.      | A. K. Mishra        | DSP, Durgapur                        | 19.08.2006   |

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

The 1st September 2006

No. E-31013 (2)/2006/Pers.-II/2413.—Shri R. S. Agrawal, Assistant Commandant/Exe of CISF who is presently on deputation to Intelligence Bureau, is hereby granted proforma promotion under 'Next Below Rule' to the rank of Deputy Commandant in CISF in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 12.07.2006 (forenoon).

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

#### OFFICE OF THE CGDA

New Delhi-110 066, the 5th September 2006

No. AN/XI/11073/AAO/Gaz Notification/Vol.-II.—The competent authority of Defence Accounts Department, Pr. Controller of Accounts (Fys), Pr. Controllers of Defence Accounts/Controllers of Defence Accounts/Controller of Finance and Accounts (Fys), Dy. CGDA (Admin) as the case may be hereby appoints the Section Officer (Accounts) mentioned in the Annexure as Assistant Accounts Officer (Gp. 'B') with effect from the date(s) noted against officer until further orders.

SHAM DEV  
Dy. CGDA (Proj.)

#### Annexure

#### LIST OF ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER

| Sl. No. | Name                 | Date of Promotion as AAO | ORG |
|---------|----------------------|--------------------------|-----|
| 1       | 2                    | 3                        | 4   |
| 1.      | R. S. Rawat          | 01.04.05                 | CG  |
| 2.      | S. C. Saha           | 01.04.05                 | FY  |
| 3.      | B. N. Sarkar         | 01.04.05                 | FY  |
| 4.      | R. T. Chavan         | 01.04.05                 | OF  |
| 5.      | D. Shanthamma        | 01.04.05                 | SB  |
| 6.      | Janak Raj            | 01.04.05                 | CC  |
| 7.      | G. L. Janova         | 01.04.05                 | PN  |
| 8.      | M. R. Nanda          | 01.04.05                 | CC  |
| 9.      | S. Venugopal         | 01.04.05                 | BL  |
| 10.     | B. S. Swarnakar      | 01.04.05                 | JB  |
| 11.     | A. K. Bhowmik        | 01.04.05                 | FY  |
| 12.     | S. S. Dev Roy        | 01.04.05                 | GT  |
| 13.     | P. K. Raina          | 01.04.05                 | PN  |
| 14.     | K. D. S. Parmar      | 01.04.05                 | JB  |
| 15.     | D. Venkateswara Rao  | 01.04.05                 | SB  |
| 16.     | M. Chattopadhyay     | 01.04.05                 | NY  |
| 17.     | Chandji Bhat         | 01.04.05                 | NC  |
| 18.     | D. N. Yadav          | 01.04.05                 | FY  |
| 19.     | J. B. Upadhyay       | 01.04.05                 | FY  |
| 20.     | K Ramakrishna Rao    | 01.04.05                 | RH  |
| 21.     | V. K. Nandi          | 01.04.05                 | JB  |
| 22.     | Ram Bhaj             | 01.04.05                 | PD  |
| 23.     | Sukhdev Singh        | 01.04.05                 | PD  |
| 24.     | S. C. Asthana        | 01.04.05                 | JB  |
| 25.     | R. P. S. Chavhan     | 01.04.05                 | JB  |
| 26.     | B. S. Choudhary      | 01.04.05                 | PD  |
| 27.     | Hanuman Prasad Verma | 01.04.05                 | PN  |
| 28.     | Ram Babu             | 01.04.05                 | PD  |
| 29.     | S. B. Padmanabhan    | 01.04.05                 | BL  |
| 30.     | Sheo Kumar Sharma    | 01.04.05                 | PN  |
| 31.     | Rajender Kumar       | 01.04.05                 | PD  |
| 32.     | M. B. Khati          | 01.04.05                 | FY  |
| 33.     | Rajesh Kalia         | 01.04.05                 | CG  |
| 34.     | Raman Bamzai         | 01.04.05                 | CC  |



| 1   | 2                       | 3        | 4   |
|-----|-------------------------|----------|-----|
| 35. | Smt. S. Subhadra        | 01.04.05 | CN  |
| 36. | B. K. Tikoo             | 01.04.05 | NC  |
| 37. | B. N. Badoni            | 01.04.05 | WC  |
| 38. | Virendra Datt           | 01.04.05 | JB  |
| 39. | Yadvinder Singh         | 01.04.05 | FY  |
| 40. | Anil Kumar Gupta        | 01.04.05 | PN  |
| 41. | Pawan Kumar Gupta       | 01.04.05 | AR  |
| 42. | D. K. Jain              | 01.04.05 | SWC |
| 43. | Shiv Kumar Ramanathan   | 01.04.05 | FY  |
| 44. | P. Premanandan Nair     | 01.04.05 | SB  |
| 45. | Birendra Kumar          | 01.04.05 | FY  |
| 46. | R. Venkatesh Iyer       | 01.04.05 | BL  |
| 47. | P. K. James             | 01.04.05 | SB  |
| 48. | Girija Kishore Joshi    | 01.04.05 | CC  |
| 49. | A. K. Shrivastava       | 01.04.05 | AF  |
| 50. | B. P. Sinha             | 01.04.05 | PT  |
| 51. | R. N. Dixit             | 01.04.05 | FY  |
| 52. | S. K. Sinha             | 01.04.05 | PT  |
| 53. | Jai Krishan Bakshi      | 01.04.05 | NC  |
| 54. | A. T. Walke             | 01.04.05 | FY  |
| 55. | Joseph Thomas Chirackal | 01.04.05 | BL  |
| 56. | Dalbir Singh            | 01.04.05 | CC  |
| 57. | Abraham George          | 01.04.05 | FY  |
| 58. | Mahendra Singh          | 01.04.05 | FY  |
| 59. | P. K. Biswas            | 01.04.05 | BR  |
| 60. | M. K. Panigrahi         | 01.04.05 | FY  |
| 61. | M. Roy                  | 01.04.05 | GT  |
| 62. | M. G. Diwakar           | 01.04.05 | BL  |
| 63. | P Rathina Sabapathy     | 01.04.05 | CN  |
| 64. | A. K. Banerjee          | 01.04.05 | AF  |
| 65. | Bijendera Singh         | 01.04.05 | BL  |
| 66. | A. S. Dabral            | 01.04.05 | FY  |
| 67. | Mahesh Kumar L Hegde    | 01.04.05 | FY  |
| 68. | P. S. Ananthamurthy     | 01.04.05 | FY  |
| 69. | A. K. S. Parmar         | 01.04.05 | FY  |
| 70. | Shital Dass             | 01.04.05 | AR  |
| 71. | Avinash Jhingaran       | 01.04.05 | JB  |
| 72. | G. Dwivedi              | 01.04.05 | BR  |

| 1    | 2                       | 3        | 4  |
|------|-------------------------|----------|----|
| 73.  | V. Chandran             | 01.04.05 | SC |
| 74.  | M. S. Bohra             | 01.04.05 | PN |
| 75.  | Jaspal Singh Choudhary  | 01.04.05 | PN |
| 76.  | Syed Md. Arif Chistie   | 01.04.05 | BR |
| 77.  | K. V. Rameshan          | 01.04.05 | CN |
| 78.  | V. C. Mishra            | 01.04.05 | FY |
| 79.  | G. Sree Lakshmi Hareesh | 01.04.05 | BL |
| 80.  | K. Krishna Murthy       | 01.04.05 | SB |
| 81.  | Anil Kumar              | 01.04.05 | CC |
| 82.  | K. Prabhakara           | 01.04.05 | SB |
| 83.  | N. K. Malviya           | 01.04.05 | FY |
| 84.  | Mukesh Chawla           | 01.04.05 | JB |
| 85.  | Mohammad Qadaruddin     | 01.04.05 | CG |
| 86.  | I. K. Thakur            | 01.04.05 | JB |
| 87.  | Divya Srinivas          | 01.04.05 | NY |
| 88.  | R. K. Bansal            | 01.04.05 | PN |
| 89.  | R. K. Srivastava        | 01.04.05 | FY |
| 90.  | Samar Bahadur Singh     | 01.04.05 | PN |
| 91.  | Parvathy H Iyer         | 01.04.05 | NY |
| 92.  | Dhiraj Kumar            | 01.04.05 | PN |
| 93.  | M. B. Madhavi           | 01.04.05 | BL |
| 94.  | V. Sudha Rani           | 01.04.05 | BL |
| 95.  | Manan Gupta             | 01.04.05 | BR |
| 96.  | T. Anuradha             | 01.04.05 | BL |
| 97.  | B. Shanti Sri           | 01.04.05 | SB |
| 98.  | P. Narasimhan           | 01.04.05 | JB |
| 99.  | P. M. Thorat            | 01.04.05 | SC |
| 100. | C. P. Latha             | 01.04.05 | FY |
| 101. | Kamal Nain              | 01.04.05 | CC |
| 102. | E. Tirkey               | 01.04.05 | JB |
| 103. | V. K. Aggarwal          | 01.04.05 | WC |
| 104. | K. A. Ramarao           | 01.04.05 | SB |
| 105. | P. C. Bodra             | 01.04.05 | PT |
| 106. | Ajra Jojo               | 01.04.05 | PN |
| 107. | A. K. Chakraborty       | 01.04.05 | BL |
| 108. | J. P. Singh             | 01.04.05 | WC |
| 109. | A. Prasad               | 01.04.05 | PT |
| 110. | R. Raghavan             | 01.04.05 | FY |

| 1    | 2                   | 3        | 4   |
|------|---------------------|----------|-----|
| 111. | K. M. Khobragade    | 01.04.05 | FY  |
| 112. | S. G. Rajput        | 01.04.05 | OF  |
| 113. | R. M. Patil         | 01.04.05 | SC  |
| 114. | Naresh Kumar Saxena | 01.04.05 | AF  |
| 115. | S. N. Gotpagar      | 01.04.05 | SC  |
| 116. | K. V. Damale        | 01.04.05 | RD  |
| 117. | M. G. Bansod        | 01.04.05 | FY  |
| 118. | Rajendra Singh      | 01.04.05 | PN  |
| 119. | P. N. Prasad        | 01.04.05 | SC  |
| 120. | S. S. Khare         | 01.04.05 | CC  |
| 121. | C. K. Bhonde        | 01.04.05 | SC  |
| 122. | M. A. Gonnade       | 01.04.05 | OF  |
| 123. | S. G. Sawalkar      | 01.04.05 | FY  |
| 124. | R. P. Jain          | 01.04.05 | FY  |
| 125. | C. P. Sundame       | 01.04.05 | OF  |
| 126. | C. R. Kamath        | 01.04.05 | FY  |
| 127. | C. S. Gupta         | 01.04.05 | SWC |
| 128. | S. V. Barve         | 01.04.05 | SC  |
| 129. | S. C. Sharma        | 01.04.05 | AF  |
| 130. | A. I. Kadu          | 01.04.05 | FY  |
| 131. | Lekh Raj Kakoria    | 01.04.05 | AD  |
| 132. | P. K. Omankuttan    | 01.04.05 | NY  |
| 133. | R. K. Sharma        | 01.04.05 | JB  |
| 134. | S. H. Wanjare       | 01.04.05 | JB  |
| 135. | Rajesh Sharma       | 01.04.05 | AR  |
| 136. | Joginder Singh      | 01.04.05 | BR  |
| 137. | Devender Singh      | 01.04.05 | PD  |
| 138. | D. D. Saini         | 01.04.05 | WC  |
| 139. | Ram Lubhaya         | 01.04.05 | PD  |
| 140. | Santokh Raj         | 01.04.05 | PD  |
| 141. | Gurdev              | 01.04.05 | PD  |
| 142. | Ashok Kumar         | 01.04.05 | FY  |
| 143. | Dharmender Singh    | 01.04.05 | WC  |
| 144. | Narinder Kumar      | 01.04.05 | PD  |
| 145. | Ashish Varade       | 01.04.05 | SC  |
| 146. | Surinder Kumar      | 01.04.05 | PN  |
| 147. | Rajinder Sadhu      | 01.04.05 | PN  |
| 148. | B. Shailaja Rao     | 01.04.05 | CN  |

| 1    | 2                    | 3        | 4  |
|------|----------------------|----------|----|
| 149. | Acche Lal            | 01.04.05 | JB |
| 150. | Satish Kumar         | 01.04.05 | CG |
| 151. | Raj Kumar            | 01.04.05 | PD |
| 152. | S. K. Sinha          | 01.04.05 | PT |
| 153. | R. B. Sharma         | 01.04.05 | PT |
| 154. | Rajiv Saxena         | 01.04.05 | AF |
| 155. | D. S. S. Banerjee    | 01.04.05 | FY |
| 156. | Ashish Kumar Thakur  | 01.04.05 | PT |
| 157. | R. K. Srivastava     | 01.04.05 | FY |
| 158. | M. E. Mandlik        | 01.04.05 | SC |
| 159. | Anil Kumar Verma     | 01.04.05 | WC |
| 160. | Atul Kumar Dixit     | 01.04.05 | FY |
| 161. | Upendra Kumar        | 01.04.05 | PT |
| 162. | N. K. Dubey          | 01.04.05 | FY |
| 163. | R. P. Verma          | 01.04.05 | FY |
| 164. | Suman K. Verma       | 01.04.05 | PT |
| 165. | Monika               | 01.04.05 | PD |
| 166. | Inder Fotedar        | 01.04.05 | CG |
| 167. | S. S. Lal            | 01.04.05 | JB |
| 168. | Satya Prakash Saini  | 01.04.05 | AF |
| 169. | U. Kalimuthu         | 01.04.05 | FY |
| 170. | G. Doley             | 01.04.05 | GT |
| 171. | Manohar Lal          | 01.04.05 | PN |
| 172. | L. S. P. Shastri     | 01.04.05 | CN |
| 173. | Binoy Mondal         | 01.04.05 | FY |
| 174. | Rajinder Singh       | 01.04.05 | PN |
| 175. | Ranjan Kumar         | 01.04.05 | PT |
| 176. | S. N. Shrivastava    | 01.04.05 | FY |
| 177. | R. K. Gupta          | 01.04.05 | AR |
| 178. | Abdul Hafiez         | 01.04.05 | SB |
| 179. | K. Raman             | 01.04.05 | BL |
| 180. | Vivekaji Koul        | 01.04.05 | PN |
| 181. | R. Seal              | 01.04.05 | GT |
| 182. | Tej Singh Adhikari   | 01.04.05 | CC |
| 183. | Vandana Kuniyal      | 01.04.05 | WC |
| 184. | Rathindra Nath Dutta | 01.04.05 | FY |
| 185. | B. K. Radha          | 01.04.05 | FY |
| 186. | H. J. Zalte          | 01.04.05 | SC |

| 1    | 2                       | 3        | 4  | 1    | 2                         | 3        | 4  |
|------|-------------------------|----------|----|------|---------------------------|----------|----|
| 187. | Vinod Kumar             | 01.04.05 | AR | 225. | P. Vijayanand             | 01.04.05 | SC |
| 188. | Neeraja Gupta           | 01.04.05 | PD | 226. | Sanjaya Kumar             | 01.04.05 | CC |
| 189. | P. S. V. Nagendra Kumar | 01.04.05 | BL | 227. | Ajay Bajpai               | 01.04.05 | FY |
| 190. | R. P. Sheokand          | 01.04.05 | BR | 228. | Suresh Kumar              | 01.04.05 | WC |
| 191. | K. Asha                 | 01.04.05 | BL | 229. | D. S. R. L. Narasimha Rao | 01.04.05 | SC |
| 192. | N. Rajeshwari           | 01.04.05 | CG | 230. | K. S. Nandra              | 01.04.05 | FY |
| 193. | M. T. Ghare             | 01.04.05 | SC | 231. | M. Veena                  | 01.04.05 | FY |
| 194. | T. Ramamurthy           | 01.04.05 | FY | 232. | R. K. Singh               | 01.04.05 | PT |
| 195. | Lakshmi Sudersham       | 01.04.05 | BL | 233. | M. V. Subramanyam         | 01.04.05 | SB |
| 196. | Rakesh Koul             | 01.04.05 | PD | 234. | Pramod Kumar Jain         | 01.04.05 | AR |
| 197. | Mani Kanta Mondal       | 01.04.05 | FY | 235. | Swaminath                 | 01.04.05 | PT |
| 198. | Kailash Chander         | 01.04.05 | AF | 236. | Ravinder                  | 01.04.05 | CG |
| 199. | Gautam Das Gupta        | 01.04.05 | PN | 237. | Panakal Dalton Thomas     | 01.04.05 | CS |
| 200. | K. Ravi Kumar           | 01.04.05 | FY | 238. | Vishnupriya               | 01.04.05 | FY |
| 201. | B. S. Jamwal            | 01.04.05 | CC | 239. | S. Madan                  | 01.04.05 | BL |
| 202. | R. Singha               | 01.04.05 | GT | 240. | Akashdeep P. Rai          | 01.04.05 | SC |
| 203. | S. Dey Sarkar           | 01.04.05 | AF | 241. | N. G. Thakkar             | 01.04.05 | SC |
| 204. | Subhash Chander         | 01.04.05 | NC | 242. | S. Ravi Kumar             | 01.04.05 | SB |
| 205. | Pratap Prasad           | 01.04.05 | PN | 243. | L. Padmapani              | 01.04.05 | BL |
| 206. | Pratap Chand            | 01.04.05 | PD | 244. | Anil Kumar                | 01.04.05 | AD |
| 207. | Mohan Pandey            | 01.04.05 | CC | 245. | Kamlendu Kumar            | 01.04.05 | OF |
| 208. | S. Vatsala              | 01.04.05 | SB | 246. | Yuktarth Mishra           | 01.04.05 | FY |
| 209. | Veena S. Inamdar        | 01.04.05 | AF | 247. | Gopal Prasad Agarwal      | 01.04.05 | SC |
| 210. | Shatruhan Singh         | 01.04.05 | CC | 248. | Purendra Dewangan         | 01.04.05 | JB |
| 211. | Sameer Saxena           | 01.04.05 | FY | 249. | Rajeev Ranjan Sinha       | 01.04.05 | AD |
| 212. | Piyush Agarwal          | 01.04.05 | PN | 250. | Sandeep Kumar             | 01.04.05 | FY |
| 213. | B. K. K. Nair           | 01.04.05 | CG | 251. | Seema Vinayak Kudva       | 01.04.05 | NY |
| 214. | S. Naushad              | 01.04.05 | FY | 252. | S. Sammel                 | 01.04.05 | FY |
| 215. | Hira Lal                | 01.04.05 | BR | 253. | R. K. S. Sengar           | 01.04.05 | JB |
| 216. | M. A. Sabir             | 01.04.05 | SB | 254. | Sandeep Verma             | 01.04.05 | FY |
| 217. | M. Srinivasa Rao        | 01.04.05 | SB | 255. | B. Gurumurthy             | 01.04.05 | JB |
| 218. | G. R. Sawant            | 01.04.05 | SC | 256. | C. C. Chatterjee          | 01.04.05 | FY |
| 219. | J. M. Payas             | 01.04.05 | OF | 257. | Abhay Kumar               | 01.04.05 | FY |
| 220. | Pallavi S. Gargate      | 01.04.05 | BL | 258. | Paresh Kumar Pati         | 01.04.05 | FY |
| 221. | Kal Kameswari           | 01.04.05 | OF | 259. | D. K. Parida              | 01.04.05 | FY |
| 222. | A. K. Nigam             | 01.04.05 | FY | 260. | C. K. Mishra              | 01.04.05 | FY |
| 223. | B. S. Rana              | 01.04.05 | CC | 261. | K. C. Agrawala            | 01.04.05 | FY |
| 224. | S. Krishnan             | 01.04.05 | FY | 262. | Tarun Kumar Verma         | 01.04.05 | FY |

| 1    | 2                       | 3        | 4   | 1    | 2                      | 3        | 4   |
|------|-------------------------|----------|-----|------|------------------------|----------|-----|
| 263. | Bijay Kumar             | 01.04.05 | FY  | 301. | Balvir Chand           | 03.04.06 | AR  |
| 264. | Sujit Kumar Singh       | 03.04.06 | PT  | 302. | Ramesh G. A.           | 03.04.06 | PN  |
| 265. | Harendra Babu Deva      | 03.04.06 | AR  | 303. | Manohar Lal            | 03.04.06 | PN  |
| 266. | D. V. Shende            | 03.04.06 | SC  | 304. | Raj Kumar              | 03.04.06 | AF  |
| 267. | S. Y. Lale              | 03.04.06 | SC  | 305. | Kuldeep Lal            | 03.04.06 | PN  |
| 268. | V. M. Kumbhar           | 03.04.06 | SC  | 306. | Kuldip Raj             | 03.04.06 | NC  |
| 269. | Ashok Kumar Banerjee    | 03.04.06 | CN  | 307. | Thomas Tarlok          | 03.04.06 | WC  |
| 270. | J. P. Kori              | 03.04.06 | JB  | 308. | P. K. Sahare           | 03.04.06 | SC  |
| 271. | M. M. Pillai            | 03.04.06 | SB  | 309. | K. P. Singh            | 03.04.06 | CG  |
| 272. | J. P. Sinha             | 03.04.06 | PT  | 310. | Satya Narayan          | 03.04.06 | FY  |
| 273. | Hira Mani Yadav         | 03.04.06 | PN  | 311. | Virendra Kumar         | 03.04.06 | PN  |
| 274. | S. K. Jain              | 03.04.06 | SWC | 312. | Kennedy Mittal         | 03.04.06 | SWC |
| 275. | Md. Saleem Khan         | 03.04.06 | WC  | 313. | Randhir Singh Jasrotia | 03.04.06 | WC  |
| 276. | A. Y. Patil             | 03.04.06 | SC  | 314. | K. Ramanarayana Chary  | 03.04.06 | SC  |
| 277. | Vinay Kumar Srivastava  | 03.04.06 | PT  | 315. | Rankaj Raina           | 03.04.06 | BR  |
| 278. | S. A. Ansari            | 03.04.06 | CC  | 316. | Balraj Chandel         | 03.04.06 | PD  |
| 279. | Jayatu Chaudhary        | 03.04.06 | FY  | 317. | Ajay Sharma            | 03.04.06 | CC  |
| 280. | S. K. Pandit            | 03.04.06 | WC  | 318. | K. K. Kalita           | 03.04.06 | GT  |
| 281. | A. K. Koul              | 03.04.06 | WC  | 319. | Samiran Das            | 03.04.06 | PN  |
| 282. | V. G. Patil             | 03.04.06 | SC  | 320. | V. K. Paul             | 03.04.06 | FY  |
| 283. | J. S. Thulkar           | 03.04.06 | FY  | 321. | Dailip Kumar           | 03.04.06 | CG  |
| 284. | A. V. Mangappathi Rao   | 03.04.06 | SC  | 322. | P. Dhananjai Sharma    | 03.04.06 | PN  |
| 285. | P. N. Bhale Rao         | 03.04.06 | SC  | 323. | P. K. Bohra            | 03.04.06 | SC  |
| 286. | L. C. Rao               | 03.04.06 | NY  | 324. | S. C. Khurana          | 03.04.06 | FY  |
| 287. | M. Madhumati            | 03.04.06 | BL  | 325. | Smt. Bijaya Dutta      | 03.04.06 | OF  |
| 288. | K. Narsimha Rao         | 03.04.06 | SB  | 326. | Sunil Raina            | 03.04.06 | WC  |
| 289. | Prakash Chand Sharma    | 03.04.06 | WC  | 327. | Laxman Singh           | 03.04.06 | CC  |
| 290. | Y. V. Murlikrishna      | 03.04.06 | SB  | 328. | T. C. Kureel           | 03.04.06 | FY  |
| 291. | Kum Himashree Ghosh     | 03.04.06 | FY  | 329. | S. J. Bajaj            | 03.04.06 | CS  |
| 292. | Ajay Khullar            | 03.04.06 | AR  | 330. | V. K. Sharma           | 03.04.06 | WC  |
| 293. | N. L. Sahu              | 02.04.06 | JB  | 331. | G. C. Saha             | 03.04.06 | PT  |
| 294. | Arun Kumar Shivpuri     | 03.04.06 | AD  | 332. | S. V. Kulkarni         | 03.04.06 | SC  |
| 295. | M. P. Soni              | 03.04.06 | PN  | 333. | Prikshat Sharma        | 03.04.06 | WC  |
| 296. | Sunil Kumar Dahiya      | 03.04.06 | AD  | 334. | R. K. Khanna           | 03.04.06 | JB  |
| 297. | D. K. Dixit             | 03.04.06 | NC  | 335. | Rajeev Kumar           | 03.04.06 | CC  |
| 298. | Subhash Chander Sukhija | 03.04.06 | ND  | 336. | Neyamuddin Khan        | 03.04.06 | CC  |
| 299. | Y. Muthaiya             | 03.04.06 | BL  | 337. | M. Heranando Singh     | 03.04.06 | PN  |
| 300. | S. K. Verma             | 03.04.06 | JB  | 338. | Pawanjit Kaur (Mrs.)   | 03.04.06 | WC  |

| 1    | 2                     | 3        | 4   |
|------|-----------------------|----------|-----|
| 339. | N. V. Rama Kumar      | 03.04.06 | OF  |
| 340. | Ramesh B. Jadhav      | 03.04.06 | NY  |
| 341. | D. K. Sinha           | 03.04.06 | JB  |
| 342. | Sanjiv Kumar          | 03.04.06 | CC  |
| 343. | Neelam Kapoor (Smt.)  | 03.04.06 | PD  |
| 344. | M. A. Deshpande       | 03.04.06 | SC  |
| 345. | R. P. Sawant          | 03.04.06 | NY  |
| 346. | Satish B. Ghag        | 03.04.06 | NY  |
| 347. | Kewal Krishan         | 03.04.06 | WC  |
| 348. | Dharmesh H. Sharma    | 03.04.06 | NY  |
| 349. | Pradeep Kumar         | 03.04.06 | JB  |
| 350. | T. K. Jayakumar       | 03.04.06 | FY  |
| 351. | Mehar Singh           | 03.04.06 | PD  |
| 352. | Hassan Lal            | 03.04.06 | JB  |
| 353. | B. B. Rout            | 03.04.06 | FY  |
| 354. | S. Srinath            | 03.04.06 | OF  |
| 355. | Anil Sharma           | 03.04.06 | AF  |
| 356. | Latha Bhawani T.      | 03.04.06 | BL  |
| 357. | Soma Sundaram M. P.   | 03.04.06 | FY  |
| 358. | M. Muniraj            | 03.04.06 | FY  |
| 359. | Sanjeev Oberoi        | 03.04.06 | NC  |
| 360. | Amit Mitro            | 03.04.06 | JB  |
| 361. | Mahesh Prajapati      | 03.04.06 | PD  |
| 362. | N. A. Bhatti          | 03.04.06 | NC  |
| 363. | Sanjay Sandotra       | 03.04.06 | JB  |
| 364. | Kamlendu Bhagabati    | 03.04.06 | PN  |
| 365. | M. N. Azeez-ur-Rahman | 03.04.06 | BL  |
| 366. | G. Siva Rama Krishnan | 03.04.06 | SC  |
| 367. | C. R. Jayasree (Smt.) | 03.04.06 | SB  |
| 368. | Rajeev Kaushal        | 03.04.06 | AR  |
| 369. | B. Venkata Rao        | 03.04.06 | SC  |
| 370. | Subhash Chander       | 03.04.06 | FD  |
| 371. | A. K. Maurya          | 03.04.06 | SWC |
| 372. | Samir Kumar           | 03.04.06 | PN  |
| 373. | D. K. Sharma          | 03.04.06 | FY  |
| 374. | M. I. Rehman          | 03.04.06 | SC  |
| 375. | M. Ramachandran       | 03.04.06 | AF  |
| 376. | Krishna Lal           | 03.04.06 | FY  |

| 1    | 2                      | 3        | 4  |
|------|------------------------|----------|----|
| 377. | M. Venkata Rao         | 03.04.06 | SC |
| 378. | A. P. Srinivasan       | 03.04.06 | BL |
| 379. | S. M. Jha              | 03.04.06 | CC |
| 380. | T. Gopinath            | 03.04.06 | SC |
| 381. | M. K. Pandita          | 03.04.06 | CC |
| 382. | Rajesh Kumar           | 03.04.06 | FY |
| 383. | A. A. Mahajan          | 03.04.06 | SC |
| 384. | T. R. Mehta            | 03.04.06 | JB |
| 385. | Mahmud Hussain Laskar  | 03.04.06 | PN |
| 386. | Diganta Kumar Gogai    | 03.04.06 | BR |
| 387. | G. R. Barapatre        | 03.04.06 | SC |
| 388. | Vimal Kishore Gupta    | 03.04.06 | NC |
| 389. | M. S. Hoakip           | 03.04.06 | WC |
| 390. | Bidhi Chand            | 03.04.06 | PD |
| 391. | Mohinder Pal           | 03.04.06 | JB |
| 392. | Charanjit Singh        | 03.04.06 | JB |
| 393. | Inder Mohan            | 03.04.06 | PD |
| 394. | T. Shyam Sunder Rao    | 03.04.06 | SC |
| 395. | M. Hema Gangadhar      | 03.04.06 | SC |
| 396. | Sukh Mathai            | 03.04.06 | NY |
| 397. | Sanjeev Sharma         | 03.04.06 | FY |
| 398. | M. Praveen Kumar       | 03.04.06 | SC |
| 399. | Mohinder Singh Sambyat | 03.04.06 | FY |
| 400. | Vipan Kumar            | 03.04.06 | PD |
| 401. | S. S. Shukla           | 03.04.06 | JB |
| 402. | K. G. S. V. Prasad     | 03.04.06 | BL |
| 403. | Pal Ram                | 03.04.06 | CC |
| 404. | Rajinder Singh         | 03.04.06 | FY |
| 405. | Prabhu Naithani        | 03.04.06 | RD |
| 406. | Ghanshyam Dass Jain    | 03.04.06 | CC |
| 407. | Balbir Singh           | 03.04.06 | PD |
| 408. | Mohd. Hussain Ahmed    | 03.04.06 | CC |
| 409. | Sanjeev Kumar          | 03.04.06 | CC |
| 410. | S. R. Boid (Smt.)      | 03.04.06 | OF |
| 411. | S. Rekha               | 03.04.06 | BL |
| 412. | A. N. Sinha            | 03.04.06 | PT |
| 413. | C. Rajagopalan         | 03.04.06 | SC |
| 414. | Suvarna Jyothy Kumud   | 03.04.06 | BL |

| 1    | 2                       | 3        | 4   |
|------|-------------------------|----------|-----|
| 415. | Robin J. D'Souza        | 03.04.06 | NY  |
| 416. | A. L. Bhagat            | 03.04.06 | NY  |
| 417. | Sidda Ramappa B.        | 03.04.06 | BL  |
| 418. | Syed Mohammed Farooq    | 03.04.06 | SWC |
| 419. | R. Jaya Kumar           | 03.04.06 | FY  |
| 420. | Narinder Paul           | 03.04.06 | SWC |
| 421. | B. S. Chakraborty       | 03.04.06 | FY  |
| 422. | Joginder Nath           | 03.04.06 | PN  |
| 423. | G. Rambabu              | 03.04.06 | OF  |
| 424. | Sandhya Lingesh         | 03.04.06 | BL  |
| 425. | K. Sunil Kumar          | 03.04.06 | SC  |
| 426. | Vasu Kumar N.           | 03.04.06 | SC  |
| 427. | M. K. Chouksey          | 03.04.06 | JB  |
| 428. | Sunita Tiwari (Mrs.)    | 03.04.06 | SC  |
| 429. | K. K. Jha               | 03.04.06 | PT  |
| 430. | B. M. Sarkar            | 03.04.06 | JB  |
| 431. | R. K. Sharma            | 03.04.06 | JB  |
| 432. | T. V. Venkateswaran     | 03.04.06 | CN  |
| 433. | Pawan Kumar Singh       | 03.04.06 | CG  |
| 434. | A. Jaya Bharathi        | 03.04.06 | BL  |
| 435. | Rajiv Kumar             | 03.04.06 | SC  |
| 436. | Biswajit Ghosh          | 03.04.06 | CC  |
| 437. | Anurag Sikka            | 03.04.06 | WC  |
| 438. | Sailendra Kumar         | 03.04.06 | FY  |
| 439. | Mohan Kumar             | 03.04.06 | SC  |
| 440. | Vaishali D'Souza (Smt.) | 03.04.06 | NY  |
| 441. | Chayan Das              | 03.04.06 | JB  |
| 442. | A. A. Mahajan           | 03.04.06 | SC  |
| 443. | Prasenjit Dey           | 03.04.06 | JB  |
| 444. | Rajeev Kumar Garg       | 03.04.06 | PN  |
| 445. | Parveen Kakkar          | 03.04.06 | WC  |
| 446. | Chitra Ramanuja (Smt.)  | 03.04.06 | OF  |
| 447. | A. Kundu                | 03.04.06 | FY  |
| 448. | Navanil Guha            | 03.04.06 | FY  |
| 449. | Binu S. Nair            | 03.04.06 | CN  |
| 450. | K. Siva Sankar          | 03.04.06 | FY  |
| 451. | Manoj Kumar             | 03.04.06 | AR  |
| 452. | Tejal V. Bhote (Smt.)   | 03.04.06 | NY  |

| 1    | 2                        | 3        | 4  |
|------|--------------------------|----------|----|
| 453. | Vidya Rajesh (Smt.)      | 03.04.06 | OF |
| 454. | J. B. Bug                | 03.04.06 | PT |
| 455. | B. K. Gupta              | 03.04.06 | FY |
| 456. | R. Satyanarayan          | 03.04.06 | OF |
| 457. | R. C. Pattanaick         | 03.04.06 | FY |
| 458. | Deepa Parmeswaram (Smt.) | 03.04.06 | NY |
| 459. | C. H. Vijay Chand        | 03.04.06 | SC |
| 460. | A. S. Srilatha Srinivas  | 03.04.06 | RH |
| 461. | M. C. Joshi              | 03.04.06 | CC |
| 462. | R. M. Das                | 03.04.06 | JB |
| 463. | J. M. Labhane            | 03.04.06 | FY |
| 464. | T. Sundarvadivel         | 03.04.06 | CN |
| 465. | P. V. S. Pavan Kumar     | 03.04.06 | BR |
| 466. | A. Srinivas              | 03.04.06 | OF |
| 467. | A. G. S. Satya Prasad    | 03.04.06 | OF |
| 468. | M. Satish Kumar          | 03.04.06 | OF |
| 469. | Md. Khaja Mohiuddin      | 03.04.06 | SC |
| 470. | Ajay Kumar               | 03.04.06 | CC |
| 471. | Harish Alreja            | 03.04.06 | CG |
| 472. | Sunil Kumr Dahiya        | 03.04.06 | PT |
| 473. | M. R. Acharya            | 03.04.06 | FY |
| 474. | T. R. Dwivedi            | 03.04.06 | JB |
| 475. | Deepak Malik             | 03.04.06 | ND |
| 476. | C. Rajasekharan          | 03.04.06 | FY |
| 477. | S. P. Jena               | 03.04.06 | FY |
| 478. | V. C. Sivapriya          | 03.04.06 | CN |
| 479. | S. D. Sharma             | 03.04.06 | CC |
| 480. | V. K. Jhadia             | 03.04.06 | JB |
| 481. | Pramod Kumar             | 03.04.06 | JB |
| 482. | Rajesh Kumar Gupta       | 03.04.06 | FY |
| 483. | Anil Kumar               | 03.04.06 | PN |
| 484. | Sanjay Ramsinghani       | 03.04.06 | FY |
| 485. | Prabhat Kumar Aggarwal   | 03.04.06 | AF |
| 486. | Ajai Kumar Sharma        | 03.04.06 | FY |
| 487. | Manjeet Kumar            | 03.04.06 | FY |
| 488. | Vilas Bhimtge            | 03.04.06 | SC |
| 489. | S. S. Bhargava           | 03.04.06 | FY |

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT  
(LABOUR BUREAU)

Shimla-171 004, the 31st August 2006

No. 5/1/2006-N.C.PI.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 2001=100 increased by 1 point and stood at 124 (one hundred & twentyfour) for the month of July, 2006.

R. K. GUPTA  
Dy. Director

KHAN MANTRALAYA  
(GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

Kolkata-700 016, the 29th August 2006

No. 1750/B/A-32013/1-Geol (Sr.)/2002-2003/19A.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint Shri S. K. Tripathi, Geologist (Jr.), Geological Survey of India, on promotion to the post of Geologist (Sr.) in the same Department and on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on regular basis notionally with effect from 06.02.2003 (F. N.) i.e. from the date his immediate junior in the grade of Geologist (Jr.) Shri A. P. Rai was promoted to the post of Geologist (Sr.) and effectively from the date of his joining GSI on repatriation from THPA, Bhutan on 12.12.2005 (FN), until further orders.

S. K. SINHA  
Sr. Administrative Officer  
for Director General

The 30th August 2006

No. 1772/B/A-19011 (1-BNM)/05/19A.—The President is pleased to appoint Shri Basahab Nandan Mahanta to the post of Geologist (Jr.) (Group 'A', Gazetted) in Geological Survey of India in the minimum of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 30.01.2006 until further orders.

S. K. SINHA  
Sr. Administrative Officer  
for Director General

The 1st September 2006

No. 2311/C/A-35018 (General)/2001/19C-Vol. I.—Shri A. S. Senthil Vadivel, Administrative Officer Grade-I, Geological Survey of India, Southern Region, Hyderabad has relinquished his charge of Administrative Officer Grade-I on 01.05.2006 (FN), to take up his new assignment as Deputy Director (Admn.) in National Institute for the Orthopaedically Handicapped, Kolkata on deputation basis for a period of 1 (One) year initially.

S. K. SINHA  
Sr. Administrative Officer  
for Director General

The 4th September 2006

No. 1567/A/A-32013/5-Dir. (ME)/2002-06/19B.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to approve the appointment of Shri Hans Raj Chawla, Mechanical Engineer (Sr.) in Geological Survey of India as Director (ME) with effect from 21.07.2006 (FN) on promotion in Geological Survey of India on pay according to Rules in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on regular basis until further orders.

S. K. SINHA  
Sr. Administrative Officer  
for Director General

SURVEY OF INDIA  
SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehradun-248 001, the 30th August 2006

No. C-295/1800(1).—The undermentioned Group 'C' Draughtsman Division-I are promoted as Chief Draughtsman, Group 'B' Post (Gazetted, Non-Ministerial) in Survey of India on regular basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the date(s) as shown against their names :—

| Sl. No. | Name                  | Date of Promotion |
|---------|-----------------------|-------------------|
| 1.      | Shri C. L. Kol (ST)   | 01.08.2006        |
| 2.      | Shri C. S. Negi (ST)  | 30.06.2006        |
| 3.      | Shri K. C. Verma      | 31.03.2006        |
| 4.      | Shri B. K. Chatterjee | 30.03.2006        |

M. GOPAL RAO  
Major General  
Surveyor General of India

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY  
VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE

Kolkata-700 064, the 1st September 2006

No. VECC/Appt./2900.—The President is pleased to appoint Dr. Gopal Mukherjee as Scientific Officer/D in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata with effect from the afternoon of July 19, 2006 in temporary capacity, until further order.

S. B. BOSE  
Administrative Officer-III

No. VECC/Appt./2901.—The President is pleased to appoint Shri Ajay Kumar Himanshu as Scientific Officer/C in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata with effect from the afternoon of March 1, 2006 in temporary capacity, until further order.

S. B. BOSE  
Administrative Officer-III

No. VECC/Appt./2902.—The President is pleased to appoint Shri Tapan Kumar Mandi as Scientific Officer/C in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata with effect from the forenoon of April 10, 2006 in temporary capacity, until further order.

S. B. BOSE  
Administrative Officer-III

(RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED  
TECHNOLOGY)

Indore, the 25th August 2006

No. RRCAT/Admn./Rect-807 (1)/779.—The Director, Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore hereby appoints Shri U. V. Ramanjaneyulu, Asstt. Accounts Officer, NFC, Hyderabad to officiate as Accounts Officer in the scale of pay Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from the forenoon on 21st August 2006 in the Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore until further orders.

D. S. RAO  
Chief Administrative Officer

(DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES)

Mumbai-400 094, the 30th August 2006

No. DPS/10015/Rectt./3746.—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Smt. Radha Hariharan, Storekeeper, CSU, DPS, Mumbai as Assistant Stores Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on an ad hoc basis in the same Unit with effect from 26.06.2006 (AN) to 28.07.2006 (AN).

KISHAN T. LONDHE  
Administrative Officer-III

No. DPS/10015/Rectt./3748.—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Smt. Mary Zachariah, Storekeeper, CSU, DPS, Mumbai as Assistant Stores Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on an ad hoc basis in the same Unit with effect from 13.02.2006 (AN) to 31.03.2006 (AN).

KISHAN T. LONDHE  
Administrative Officer-III

No. DPS/10015/Rectt./3749.—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Smt. Mary Zachariah, Storekeeper, CSU, DPS, Mumbai as Assistant Stores Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- on an ad hoc basis in the same Unit with effect from 19.06.2006 (AN) to 21.07.2006 (AN).

KISHAN T. LONDHE  
Administrative Officer-III

(HEAVY WATER BOARD)

Mumbai-400 094, the 24th August 2006

No. HWB/R/1(53)/2006/817.—The President is pleased to appoint Kum. Amita Malvi to officiate as Scientific Officer/C (Software) in a temporary capacity in Heavy Water Plant (Kota), Rajasthan in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from August 5, 2006 (FN) until further orders.

P. APPA RAO  
Administrative Officer

Mumbai-94, the 29th August 2006.

No. HWB/R/4 (15)/2005/831.—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/C of Heavy Water Plant (Talcher) to the grade of Scientific Officer/D in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of August 1, 2005 in the same Office in a temporary capacity until further orders :—

| Sl. No. | Name                        | Present Grade | Promoted Grade |
|---------|-----------------------------|---------------|----------------|
|         | S/Shri                      |               |                |
| 1.      | Mallampalli Sivaramakrishna | SO/C          | SO/D           |
| 2.      | Sarvajit Kumar              | SO/C          | SO/D           |

The above officers relinquished charge of the lower post held by them on the forenoon of August 1, 2005.

R. K. SAINI  
Chief Administrative Officer

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110 003, the 1st September 2006

No. A-39012/4/2006-E-I.—President is pleased to accept the notice of voluntary retirement from Government Service under Rule 48-A of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 of Shri Babu Lal, Deputy Director of Airworthiness in the Office of the Director General of Civil Aviation with effect from 01.09.2006 (forenoon) and he stands relieved of his duties with effect from the forenoon of 01.09.2006.

CHANAN RAM  
Dy. Director of Administration

CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT  
DIRECTORATE GENERAL OF WORKS  
O/o CHIEF ARCHITECT (NDR)

New Delhi-110 011, the 31st August 2006

No. 27/280/1988-C.A.(NDR)/Estt/1570-77.—Consequent upon his attaining the age of superannuation Shri M. T. Meshram, Chief Architect, Central Public Works Department,



Nirman Bhawan, New Delhi retires from Government service with effect from the afternoon on 31.8.2006.

VIJAY P. RAO  
Liaison Officer to Chief Architect (New Delhi Region)

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS  
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)  
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vinayak Handicrafts Private Limited

Jaipur, the 24th August 2006

No. ROC/JPR/560/20456.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Vinayak Handicrafts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aketa Finvest Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 29th August 2006

No. 04-18909/ROC (KHM) U/S 560/2006/1105.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aketa Finvest Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jupiter Intermediates Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 31st August 2006

No. 04-34142/ROC (KHM) U/S 560/2005/1570.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jupiter Intermediates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

P. A. SAPLE  
Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Megasys Infonet Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 1st September 2006

No. 04-42180/AROC (KH) U/S 560/2006/1573.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Megasys Infonet Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI  
Asstt. Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Trilogics Infotech Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 1st September 2006

No. 04-36545/AROC (KHM) U/S 560/2006/1576.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Trilogics Infotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI  
Asstt. Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Camp Aviation and Exports Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 1st September 2006

No. 04-37011/AROC (KH) U/S 560/2006/1579.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Camp Aviation and Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI  
Asstt. Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bluestream Technologies Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 1st September 2006

No. 04-46899/AROC (KH) U/S 560/2006/1582.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bluestream Technologies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

KAMAL HARJANI  
Asstt. Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Parekh Aluminium Company Limited

Ahmedabad-380 013, the 1st September 2006

No. 04-247743/ROC (KHM) U/S 560/2005/1585.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Parekh Aluminium Company Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mega Metachem Limited

Ahmedabad-380 013, the 1st September 2006

No. 04-24885/ROC (KHM) U/S 560/2005/1585.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mega Metachem Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Alishan Foods and Finance Limited

Ahmedabad-380 013, the 1st September 2006

No. 04-24886/ROC (KHM) U/S 560/2005/1586.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Alishan Foods and Finance Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gokul Industries Limited

Ahmedabad-380 013, the 1st September 2006

No. 04-24771/ROC (KHM) U/S 560/2005/1588.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Gokul Industries Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dolvan Bio Tech Limited

Ahmedabad-380 013, the 1st September 2006

No. 04-24772/ROC (KHM) U/S 560/2005/1591.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Dolvan Bio Tech Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sheetal Specialities Limited

Ahmedabad-380 013, the 1st September 2006

No. 04-24887/ROC (KHM) U/S 560/2005/1591.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sheetal Specialities Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Multi Meida Software Limited

Ahmedabad-380 013, the 1st September 2006

No. 04-24762/ROC (KHM) U/S 560/2005/1594.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Multi Meida Software Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Zilmil Finance Limited

Ahmedabad-380 013, the 1st September 2006

No. 04-24801/ROC (KHM) U/S 560/2005/1597.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Zilmil Finance Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ronak Infin and Traders Limited

Ahmedabad-380 013, the 1st September 2006

No. 04-24811/ROC (KHM) U/S 560/2005/1600.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ronak Infin and Traders Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cast-West Finstock Limited

Ahmedabad-380 013, the 1st September 2006

No. 04-24814/ROC (KHM) U/S 560/2005/1603.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Cast-West Finstock Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Parth Securities Limited

Ahmedabad-380 013, the 1st September 2006

No. 04-24820/ROC (KHM) U/S 560/2005/1606.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Parth Securities Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Valera Filamenproof Equipments Limited

Ahmedabad-380 013, the 1st September 2006

No. 04-24822/ROC (KHM) U/S 560/2005/1609.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Valera Filamenproof Equipments Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bhavna Securities Limited

Ahmedabad-380 013, the 1st September 2006

No. 04-24831/ROC (KHM) U/S 560/2005/1612.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhavna Securities Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kalashree Constructions Limited

Ahmedabad-380 013, the 1st September 2006

No. 04-24839/ROC (KHM) U/S 560/2005/1615.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of M/s. Kalashree Constructions Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Advance Savings and Investment India Limited

Ahmedabad-380 013, the 1st September 2006

No. 04-24835/ROC (KHM) U/S 560/2005/1618.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Advance Savings and Investment India Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. P. N. Finstock Limited

Ahmedabad-380 013, the 1st September 2006

No. 04-24836/ROC (KHM) U/S 560/2005/1621.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. P. N. Finstock Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. P. N. Trading and Contracting Co. Limited

Ahmedabad-380 013, the 1st September 2006

No. 04-24837/ROC (KHM) U/S 560/2005/1624.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. P. N. Trading and Contracting Co. Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mass Tele Films Limited

Ahmedabad-380 013, the 1st September 2006

No. 04-24868/ROC (KHM) U/S 560/2005/1622.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mass Tele Films Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ami Padma Housing and Finance Limited  
(Ami Padma Finstock)

Ahmedabad-380 013, the 1st September 2006

No. 04-24890/ROC (KHM) U/S 560/2005/1639.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Amipadma Housing and Finance Limited (Ami Padma Finstock) unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hillmens Agro (India) Limited

Ahmedabad-380 013, the 1st September 2006

No. 04-24893/ROC (KHM) U/S 560/2005/1642.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Hillmens Agro (India) Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jenburkt Gases Limited

Ahmedabad-380 013, the 1st September 2006

No. 04-24794/ROC (KHM) U/S 560/2005/1645.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jenburkt Gases Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cure Spects Lasers Limited

Ahmedabad-380 013, the 1st September 2006

No. 04-24896/ROC (KHM) U/S 560/2005/1648.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Cure Spects Lasers Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

V. K. KHUBCHANDANI  
Registrar of Companies, Gujarat,  
Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of following  
Companies

Cuttack-753001, the 29th August 2006

ROC/SEC. 560(3)/1208.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the following companies unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said companies will be dissolved:—

| Sl. No. | Company No. | Name of Company                                    |
|---------|-------------|--|
| 1       | 2           | 3  |
| 1.      | 15-000122   | M/s. Ramba Industries Limited                      |
| 2.      | 15-000151   | M/s. Ghosh Nandy & Co. Private Limited             |
| 3.      | 15-00231    | M/s. Kalinga Construction Co. Private Limited      |
| 4.      | 15-000294   | M/s. Jharna Mills Private Limited                  |
| 5.      | 15-000316   | M/s. Utkal Cycle Manufacturing Co. Private Limited |
| 6.      | 15-000324   | M/s. Kalinga Air Lines Private Limited             |
| 7.      | 15-000328   | M/s. Cuttack Iron & Steel Products Limited         |
| 8.      | 15-000337   | M/s. Kalinga Foundry Private Limited               |

| 1   | 2         | 3   |
|-----|-----------|---|
| 9.  | 15-000369 | M/s. Rupa Raga Private Limited                        |
| 10. | 15-000374 | M/s. Utkal Baniya Private Limited                     |
| 11. | 15-000407 | M/s. Sibco Industries Private Limited                 |
| 12. | 15-000413 | M/s. Vulcan Industries Private Limited                |
| 13. | 15-000441 | M/s. Khurda Metal Industries Limited                  |
| 14. | 15-000445 | M/s. Orissa Dairy Products Limited                    |
| 15. | 15-000448 | M/s. Aerovoice & Engineering Private Limited          |
| 16. | 15-000481 | M/s. Tuec Hospitals Private Limited                   |
| 17. | 15-000498 | M/s. Asian Builders Private Limited                   |
| 18. | 15-000518 | M/s. Sreenivas Industrial Enterprises Private Limited |

B. MOHANTY  
Registrar of Companies  
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Seven Hill Spinners Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-1037.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Seven Hill Spinners Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bannariamman Farms Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-3155.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bannariamman Farms Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kuruthamalai Murugan Forms Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-3206.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kuruthamalai Murugan Forms Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Espa Industrial Coimbatore Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-2105.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Espa Industrial Coimbatore Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ke Yes Granites Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-2871.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ke Yes Granites Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sri Guru Super Market Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-6979.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri Guru Super Market Private Limited has this day been struck off from the

Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Clean Builts Constructions Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-7013.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Clean Builts Constructions Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Highway Transport Corporation South India  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-1113.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Highway Transport Corporation South India Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vigneshraja Finance and Investments Private  
Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-6537.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vigneshraja Finance and Investments Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajarajeswari Consultancy Services Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-4883.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajarajeswari Consultancy Services Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. C. L. Wind Power Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-6189.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. C. L. Wind Power Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vadavalli Cable TV Network Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-8337.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vadavalli Cable TV Network Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sri Ranganathar.Com Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-9293.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri Ranganathar.Com Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved

on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Venkitam Sri Ranganathar Finance and Investments  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-8138.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Venkitam Sri Ranganathar Finance and Investments Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Fast Rise Property Development Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-6554.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Fast Rise Property Development Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Janani Poly Pipe Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-8340.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Janani Poly Pipe Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Veltex Engineers Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-1394.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Veltex Engineers Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bluechip Software Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-3491.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bluechip Software Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Valarmathi Steel Castings Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-1650.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Valarmathi Steel Castings Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Barani Garments Exporters Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-4201.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Barani Garments Exporters Private Limited has this day been struck off from the

Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Higrow Textiles Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-6553.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Higrow Textiles Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Manogiri Spinning Mill Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-6534.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Manogiri Spinning Mill Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sumansumangala Chit Fund Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-6285.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sumansumangala Chit Fund Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu



In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Surya Combines Textiles and Engineering  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-3863.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Surya Combines Textiles and Engineering Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. S. V. S. Garments Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-6586.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. V. S. Garments Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. B. L. R. Securities Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-6467.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. B. L. R. Securities Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kalpatharu Neem Extracts Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-6228.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kalpatharu Neem Extracts Private Limited has this day been struck off from the Register

of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hosur Conveyors Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-2187.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hosur Conveyors Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ahura Weldtech Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-4350.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ahura Weldtech Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. K. R. G. Investments and Financial Services  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-6552.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. K. R. G. Investments and Financial Services Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. G. K. B. Steels Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-8174.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. G. K. B. Steels Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Coimbatore Sri Krishna Investments Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-3188.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Coimbatore Sri Krishna Investments Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Coimbatore Sterling Finance and Investments  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-4393.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Coimbatore Sterling Finance and Investments Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kamalin Marketing Network Company  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-3419.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kamalin Marketing Network

Company Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vikram Textile Research and Developments  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-3416.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vikram Textile Research and Developments Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ideal Boards Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-3129.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ideal Boards Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jain Financial Services Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-2828.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jain Financial Services Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sreevatsa Trading Company (CBE) Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-2550.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sreevatsa Trading Company (CBE) Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aries Transports Co. Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-446.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aries Transports Co. Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sri Palani Andavar Roadways Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-512.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri Palani Andavar Roadways Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aarbi Computer Services Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-2010.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aarbi Computer Services Private Limited has this day been struck off from the

Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Spectra Finance and Investment Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-1088.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Spectra Finance and Investment Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mediject (India) Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-1978.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mediject (India) Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajasekar Textiles Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-1815.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajasekar Textiles Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Covai Kurinji Finance and Investments Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-2588.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Covai Kurinji Finance and Investments Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Geetha Yarn Knits Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-3899.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Geetha Yarn Knits Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kapaliswarar Transports Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-3960.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kapaliswarar Transports Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pioneer Stocks Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-3794.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pioneer Stocks Private Limited has this day been struck off from the Register of

Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sree Ganapathy Theatres Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-3679.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sree Ganapathy Theatres Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. K. N. Cotton Mills Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-2277.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. K. N. Cotton Mills Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Enbee Leasing and Finance Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-1927.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Enbee Leasing and Finance Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Five Star Chits Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-1397.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Five Star Chits Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gnanamani Pipe Industries Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-539.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gnanamani Pipe Industries Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dhandayuthapani Textiles Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-5279.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dhandayuthapani Textiles Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Erode Foods Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-6317.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Erode Foods Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies

and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Prime Precured Systems Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-6499.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Prime Precured Systems Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kongu Royal Chits Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-4257.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kongu Royal Chits Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. G. K. S. R. Chit Funds Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-4706.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. G. K. S. R. Chit Funds Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. V. K. R. Chits Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-4993.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. V. K. R. Chits Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shree Nanmuhi Textiles Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-6865.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shree Nanmuhi Textiles Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vijayprakash Finance and Securities  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-7232.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vijayprakash Finance and Securities Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Veejay Tectonics Housing Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-7306.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Veejay Tectonics Housing

Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Getwin Weaving and Exports Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-7559.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Getwin Weaving and Exports Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sastivel Financing Company Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-5148.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sastivel Financing Company Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Arulmigu Karumariamman Movies Private Limited

Coimbatore-641 005, the 12th June 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-1733.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arulmigu Karumariamman Movies Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Palani Vysya Benefit Fund Limited

Coimbatore-641 005, the 12th June 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-5370.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Palani Vysya Benefit Fund Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Encee Essential Oils Private Limited

Coimbatore-641 005, the 29th August 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-875.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Encee Essential Oils Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chandini & Co. Private Limited

Coimbatore-641 005, the 29th August 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-1959.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Chandini & Co. Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kaybeekay Engineering Industries Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-7587.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kaybeekay Engineering Industries Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands

dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jayalakshmi Engineering Manufacturers Private  
Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-635.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jayalakshmi Engineering Manufacturers Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Siva Carthic Commercial Finance Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-8612.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Siva Carthic Commercial Finance Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sharp Agro India Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-4425.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sharp Agro India Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Carthic Hire Purchase Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-4156.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Carthic Hire Purchase Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Madras Pioneer Plastochem Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-2419.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Madras Pioneer Plastochem Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Devothung Property Developers Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-7464.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Devothung Property Developers Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jay Yess Jay Chits Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-6377.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jay Yess Jay Chits Private

Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajaraja Sainath Chit Funds Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-7066.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajaraja Sainath Chit Funds Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Group One Estate Developers and Builders  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-1893.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Group One Estate Developers and Builders Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sri Chendur Finance Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-3163.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri Chendur Finance Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu



In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sree Utham Textiles Spinners and Processors  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-1305.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sree Utham Textiles Spinners and Processors Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Aloha Travels Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-1380.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aloha Travels Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sugam Benefit Fund Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-5838.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sugam Benefit Fund Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sree Yogalakshmi Packaging Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-5084.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sree Yogalakshmi Packaging Private Limited has this day been struck off from the

Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. R.T.A.M. Financial and Information Services  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-6630.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. R.T.A.M. Financial and Information Services Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. L.M.W. Management Services Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-3516.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. L.M.W. Management Services Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Brand Kraaft Advertising Services India  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-9997.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Brand Kraaft Advertising Services India Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Glenview Hotel Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-6276.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Glenview Hotel Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hotel Thoulath Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-3028.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hotel Thoulath Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ooty Garments Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-3424.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ooty Garments Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pudumai Pathippagam Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-4135.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pudumai Pathippagam Private Limited has this day been struck off from the

Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pillaiyarappan Chits Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-2839.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pillaiyarappan Chits Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jagenberg-Servall Papertechnic Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-7276.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jagenberg-Servall Papertechnic Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sri Gowri Steel Mills Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-2765.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri Gowri Steel Mills Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rathom Textile Exports Private Limited  
Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-7924.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rathom Textile Exports Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Poosam Constructions Private Limited  
Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-6062.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Poosam Constructions Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sri Ponkalamman Finance Company  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-6450.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri Ponkalamman Finance Company Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vinner Pumps Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-2213.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vinner Pumps Private Limited

has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. S.M.S. Housing Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-5213.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S.M.S. Housing Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sri Umayambika Chit Fund Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-538.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri Umayambika Chit Fund Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Texcity Textiles Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-3360.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Texcity Textiles Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Royal Avenue Shelters Private Limited (Trans. from  
Chennai)

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-9511.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Royal Avenue Shelters Private Limited (Trans. from Chennai) has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Thudiyalur Muthusamy Kaliammal Finance  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-6122.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Thudiyalur Muthusamy Kaliammal Finance Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Herbys Aqua Farms Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-4599.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Herbys Aqua Farms Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dharan Spinners Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-4680.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dharan Spinners Private

Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Corrogonon Chemicals Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-3025.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Corrogonon Chemicals Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sundar Wire Tecno Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-5643.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sundar Wire Tecno Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Selvarajaganesh Chits Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-7119.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Selvarajaganesh Chits Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sanjeevi Super Market Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-4488.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sanjeevi Super Market Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vendhan Finance and Investments Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-6147.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vendhan Finance and Investments Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Imaiyan Finance Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-3541.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Imaiyan Finance Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cottoncity Securities Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-5663.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Cottoncity Securities Private

Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sri R. B. S. Spinnings Private Limited (T)

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-9463.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri R. B. S. Spinnings Private Limited (T) has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. S. S. P. Dynamic Engineering India  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-7072.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. S. P. Dynamic Engineering India Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Southern Stone Products (India) Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-4171.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Southern Stone Products (India) Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Anicha Stocks and Shares Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-6430.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Anicha Stocks and Shares Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Elegant Knitters Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-4406.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Elegant Knitters Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chozhanadu Finance and Investments  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-5594.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Chozhanadu Finance and Investments Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sakthi Savithiry Chit Funds Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-4040.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sakthi Savithiry Chit Funds

Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vredestein Elgi Recycling Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-7820.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vredestein Elgi Recycling Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kamadhenu Drinks and Distilleries Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-717.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kamadhenu Drinks and Distilleries Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sunco Biotech Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-6220.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sunco Biotech Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gnanasarovar Finance Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-6490.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gnanasarovar Finance Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. R. L. V. Benefit Fund Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-5617.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. R. L. V. Benefit Fund Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Raghuram Precision Industries  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-1953.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Raghuram Precision Industries Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. R. L. V. Export Import Associates India  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-6081.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. R. L. V. Export Import

Associates India Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pacific Partners Franchise Development  
India Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-7778.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pacific Partners Franchise Development India Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Girison Appliances Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-1498.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Girison Appliances Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. D. E. C. Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-3963.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. D. E. C. Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chita Silk Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-3612.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Chita Silk Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Super Ten Textile Exporters Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-3242.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Super Ten Textile Exporters Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Best Complex Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-2011.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Best Complex Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. A. R. R. Granites Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-3732.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A. R. R.

Granites Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cosmos Chit Fund Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-4124.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Cosmos Chit Fund Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. United Cabs Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-3312.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. United Cabs Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Keartiman Chits and Finance Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-1210.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Keartiman Chits and Finance Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu



In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. S. G. Jayaraj Nadar & Sons Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-296.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. G. Jayaraj Nadar & Sons Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Growmax Finance Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-4837.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Growmax Finance Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lifetime Properties Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-6940.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lifetime Properties Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Seagull Technologies Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-7758.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Seagull Technologies Private

Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. A. R. R. Textile Mills Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-5549.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A. R. R. Textile Mills Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pioneer Bio Fuels Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-6965.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pioneer Bio Fuels Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nianthrini Leasing and Investments  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-3052.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nianthrini Leasing and Investments Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Keshav Travels Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-4449.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Keshav Travels Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sivamala Finance Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-6026.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sivamala Finance Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ammu Marketing Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-9750.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ammu Marketing Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vetel Softnet Technologies Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-9053.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vetel Softnet Technologies

Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Janageeswari Chits Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-7771.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Janageeswari Chits Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Regal Paper and Boards Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-8444.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Regal Paper and Boards Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ganapathy Sivavilas Chit Funds  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-6162.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ganapathy Sivavilas Chit Funds Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Coimbatore Janopakara Finance & Chit  
Funds Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-40.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Coimbatore Janopakara Finance & Chit Funds Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Om Mangalanayagi Chits Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-5730.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Om Managanayagi Chits Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. South Indian Rubber Works Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-191.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. South Indian Rubber Works Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Girinath Marbles Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-1574.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Girinath Marbles Private

Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Packiam Roadways Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-355.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Packiam Roadways Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. S. L. R. S. Software Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-9793.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. L. R. S. Software Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Valency Softek Infosys Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-9244.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Valency Softek Infosys Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gangotri Spinners Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-5747.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gangotri Spinners Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. R. S. T. Finance and Leasing Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-4606.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. R. S. T. Finance and Leasing Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ennardee Chits Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-2799.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ennardee Chits Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mriganka Holdings and Investments  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-6111.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mriganka Holdings and

Investments Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. T. K. S. Financial Services Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-3500.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. T. K. S. Financial Services Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jaya Credits Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-383.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jaya Credits Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. A. G. T. Equipments Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-7180.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. A. G. T. Equipments Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kovai Clothing Company Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-4203.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kovai Clothing Company Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Textem Knitting Mills Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-2179.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Textem Knitting Mills Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Eashwar Polyroots Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-5013.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Eashwar Polyroots Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Divine Exports (India) Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-2420.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Divine Exports (India)

Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Haitima Fittings Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-7553.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Haitima Fittings Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Erode Tannery Effluent Treatment  
Company Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-2761.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Erode Tannery Effluent Treatment Company Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dhivyadharshan Chit Fund Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-5507.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dhivyadharshan Chit Fund Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajendra Computers Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-5115.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajendra Computers Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mercury Food Products Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-1687.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mercury Food Products Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Amarjothi Real Estates and Housing Finance  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-1776.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Amarjothi Real Estates and Housing Finance Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. G. E. S. Electrotechnologies Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-7194.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. G. E. S. Electrotechnologies

Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mangal Jothi Finance and Leasing  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-1775.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mangal Jothi Finance and Leasing Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Saroj International Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-3298.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Saroj International Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Yaley Finance Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-6312.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Yaley Finance Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. S. L. S. N. Consultancy Service Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-7155.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. L. S. N. Consultancy Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Adhilakshmi Finance and Investment  
Co. Limited

Coimbatore-641 005, the 8th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-3982.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Adhilakshmi Finance and Investment Co. Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gobald Finance Limited

Coimbatore-641 005, the 8th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-6295.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gobald Finance Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cartel Cable Communications Private Limited

Coimbatore-641 005, the 8th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-7153.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Cartel Cable Communications

Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kalyani Transports Private Limited

Coimbatore-641 005, the 8th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-290.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kalyani Transports Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kovai Secretarial & Financial Services  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 8th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-2618.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kovai Secretarial & Financial Services Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sri Thankamman Finance Private Limited

Coimbatore-641 005, the 8th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-6415.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri Thankamman Finance Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. T. R. S. Nitrum Private Limited

Coimbatore-641 005, the 8th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-7693.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. T. R. S. Nitrum Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. T. T. Foods Private Limited

Coimbatore-641 005, the 8th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-7030.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. T. T. Foods Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Coimbatore Sterling Chit Funds  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 8th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-4392.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Coimbatore Sterling Chit Funds Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Prema Chit Funds Private Limited

Coimbatore-641 005, the 8th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-1504.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Prema Chit Funds Private

Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sri Selvalakshmi Dairy Products  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 8th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-5622.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri Selvalakshmi Dairy Products Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Armstrong Clothing Private Limited

Coimbatore-641 005, the 8th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-6224.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Armstrong Clothing Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dee Dee Investments Private Limited

Coimbatore-641 005, the 8th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-3349.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dee Dee Investments Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu



In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vetri International Private Limited

Coimbatore-641 005, the 8th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-7695.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vetri International Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rasagontalugovardhna Investment and Finance  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 8th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-5442.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rasagontalugovardhna Investment and Finance Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cohesion Softwares and Services (India)  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 8th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-9685.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Cohesion Softwares and Services (India) Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. G.N.M. Shares Private Limited

Coimbatore-641 005, the 8th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-5707.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the name of M/s. G.N.M. Shares Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Origo Technologies Private Limited

Coimbatore-641 005, the 8th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-8142.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Origo Technologies Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Avanashi Power Looms Private Limited

Coimbatore-641 005, the 8th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-1944.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Avanashi Power Looms Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Anamallais Foundry Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-1402.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Anamallais Foundry Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. South India Sugars Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-10322.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. South India Sugars Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vishnu Priya Benefit Fund Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-3688.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vishnu Priya Benefit Fund Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bluegem Finance (India) Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-5137.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bluegem Finance (India) Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Radiator Caps Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-1264.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the name of M/s. Radiator Caps Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shri Venkatalakshmi Chits Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-4027.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shri Venkatalakshmi Chits Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Andal Dorairaj Investments Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-3352.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Andal Dorairaj Investments Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vidya Sharathram Investments Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-3350.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vidya Sharathram Investments Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lakshmi Drugs and Pharmaceuticals  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-1588.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lakshmi Drugs and Pharmaceuticals Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Indira Engineering Industries Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-697.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Indira Engineering Industries Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sri Soorya Priya Finance Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-4988.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri Soorya Priya Finance Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. C. M. S. Printing & Publishing House  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-3088.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the name of M/s. C. M. S. Printing & Publishing House Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Murugan Minerals Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-1579.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Murugan Minerals Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. T. R. S. Chit Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-6015.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. T. R. S. Chit Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Coimbatore Computer Centre Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-1093.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Coimbatore Computer Centre Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. M. R. T. Securities Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-5890.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. M. R. T. Securities Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. L. M. W. Investments Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-1373.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. L. M. W. Investments Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Quattro Infotech (India) Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-9613.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Quattro Infotech (India) Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dee-Jay Leasing Co. Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-1382.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dee-Jay Leasing Co. Limited

has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Supam Computec Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-6904.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Supam Computec Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sadhurthi Finance and Investments  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-8156.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sadhurthi Finance and Investments Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sri Somasundarams Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-3973.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri Somasundarams Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. K. Parthasarathy Spinning Mills Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-1312.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. K. Parthasarathy Spinning Mills Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajagondalu Chits Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-4694.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajagondalu Chits Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gurupuram Interiors and Exteriors  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-8604.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gurupuram Interiors and Exteriors Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. E. M. M. G. E. S. Exports Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-6635.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the name of M/s. E. M. M. G. E. S. Exports Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sri Sathya Sai Finance Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-4484.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri Sathya Sai Finance Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Arrow Textile Machine Works Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-3070.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arrow Textile Machine Works Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Twilight Travel Related Services Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-8002.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Twilight Travel Related Services Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sivamala Chit Funds Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-5778.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sivamala Chit Funds Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gunashree Agency Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-7824.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gunashree Agency Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Busy Boy Consultants Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-7780.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Busy Boy Consultants Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sugavaneswara Textiles Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-1873.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sugavaneswara Textiles Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands

dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Valapady Srinivasa Fabrics Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-1866.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Valapady Srinivasa Fabrics Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajarajan Textiles Machinery Manufactures  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-1803.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajarajan Textiles Machinery Manufactures Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gugai Salem Dyeing Common Effluent  
Treatment Company Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-7009.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gugai Salem Dyeing Common Effluent Treatment Company Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. H. R. Benefit Fund Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-6906.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. H. R. Benefit Fund Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Cauvery Institute of Information Technology  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-7480.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Cauvery Institute of Information Technology Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Armada Real Estates and Construction  
Agencies Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-6463.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Armada Real Estates and Construction Agencies Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Helvetica Financial and Investment Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-7075.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the name of M/s. Helvetica Financial and Investment Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. B. F. S. Exports Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-8409.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. B. F. S. Exports Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sharp Equipment Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-4391.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sharp Equipment Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Salzer Resorts Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-3789.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Salzer Resorts Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Shawin Textiles Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-5728.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shawin Textiles Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Texcity Benefit Fund Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-6225.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Texcity Benefit Fund Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mercantile Sea and Air Forwarders (India)  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-9235.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mercantile Sea and Air Forwarders (India) Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Prakash Pre-cured Retread Machines  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-3422.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the name of M/s. Prakash Pre-cured Retread Machines Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hamsalakshmi Mills Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-1119.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hamsalakshmi Mills Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ramraj Investments Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-1375.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ramraj Investments Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Multiplus Finance Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-6154.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Multiplus Finance Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu



In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ullasam Water Park India Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-9892.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ullasam Water Park India Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sri Garudalwar Finance Private Limited.

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-4744.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri Garudalwar Finance Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Palaniswamy Construction Company  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-2962.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Palaniswamy Construction Company Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dhanalakshmi Chits Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-4088.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dhanalakshmi Chits Private

Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Skywin Investments Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-6256.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Skywin Investments Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Multiplus Chits Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-6155.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Multiplus Chits Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sri Maharaja Vanaspati Products  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-3546.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri Maharaja Vanaspati Products Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Atchara Enterprises Private Limited

Coimbatore-641 005, the 14th January 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-7554.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Atchara Enterprises Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chandra Hire Purchase and General  
Finance Limited

Coimbatore-641 005, the 28th June 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-1259.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Chandra Hire Purchase and General Finance Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Meetala Spining Mills Private Limited

Coimbatore-641 005, the 28th June 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-1894.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Meetala Spining Mills Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. K. N. R. Chit Private Limited

Coimbatore-641 005, the 28th June 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-4852.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the name of M/s. K. N. R. Chit Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sri Premraj Knittex Private Limited

Coimbatore-641 005, the 28th June 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-4806.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri Premraj Knittex Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sumantrak Corporate Investment and  
Portfolio Services Limited

Coimbatore-641 005, the 28th June 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-5673.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sumantrak Corporate Investment and Portfolio Services Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Fazil Leathers Private Limited

Coimbatore-641 005, the 28th June 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-6957.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Fazil Leathers Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sree Annapoorna Benefit Fund Limited

Coimbatore-641 005, the 28th June 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-6952.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sree Annapoorna Benefit Fund Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. S. V. A. Electronics Private Limited

Coimbatore-641 005, the 28th June 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-1912.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. V. A. Electronics Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. C. P. C. Electric Private Limited

Coimbatore-641 005, the 28th June 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-2202.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. C. P. C. Electric Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. C. P. C. Engineering Private Limited

Coimbatore-641 005, the 28th June 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-1880.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. C. P. C. Engineering Private

Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ponni Chit Fund Private Limited

Coimbatore-641 005, the 28th June 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-6311.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ponni Chit Fund Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. S. T. M. T. Chit Funds Private Limited

Coimbatore-641 005, the 28th June 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-7982.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. T. M. T. Chit Funds Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sun Finance Private Limited

Coimbatore-641 005, the 28th June 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-2582.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sun Finance Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lubar Chemicals India Private Limited

Coimbatore-641 005, the 28th June 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-6677.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lubar Chemicals India Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Southern Snaacks Private Limited

Coimbatore-641 005, the 28th June 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-9303.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Southern Snaacks Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chendur Travels Private Limited

Coimbatore-641 005, the 28th June 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-6456.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Chendur Travels Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nelli Chit Funds Private Limited

Coimbatore-641 005, the 28th June 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-6716.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nelli Chit Funds Private

Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vijaigopal Chit Funds Private Limited

Coimbatore-641 005, the 28th June 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-4076.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vijaigopal Chit Funds Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Integral Nurseries Private Limited

Coimbatore-641 005, the 28th June 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-6593.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Integral Nurseries Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Vijay Universal Private Limited

Coimbatore-641 005, the 28th June 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-1078.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vijay Universal Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Velan Health Resorts Private Limited

Coimbatore-641 005, the 28th June 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-4192.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Velan Health Resorts Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jaivaani Sales and Services India  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 28th June 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-4778.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jaivaani Sales and Services India Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Chola Steel Industries Private Limited

Coimbatore-641 005, the 28th June 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-864.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Chola Steel Industries Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Arul Bharathi Trading Links  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 28th June 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-7219.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Arul Bharathi Trading Links Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Channel Investment Services  
Private Limited

Coimbatore-641 005, the 28th June 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-2623.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Channel Investment Services Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Fourways Impex Private Limited

Coimbatore-641 005, the 28th June 2004

No. S. 560 (5)/C : 181-6670.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Fourways Impex Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ditex Chemicals Private Limited

Coimbatore-641 005, the 9th December 2003

No. S. 560 (5)/C : 181-6157.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ditex Chemicals Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bathrakali Amman Farms Private Limited

Coimbatore-641 005, the 16th April 2002

No. S. 560 (5)/C : 181-3128.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bathrakali Amman Farms Private Limited has this day been struck off from the Register of Companies and the Company stands dissolved on the date of publication of this Notice in the Gazette of India.

V. SELVARAJ  
Registrar of Companies  
Tamilnadu